

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
 प्राधिकार से प्रकाशित
 PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 15] वर्षी दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 14, 2001 (चैत्र 24, 1923)
 No. 15] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 14, 2001 (CHAITRA 24, 1923)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
 (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
 [PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिजर्व बैंक
 केन्द्रीय कार्यालय
 (बैंकिंग परिवर्तन और विकास विभाग)

केन्द्र-1, विश्व व्यापार केन्द्र

कफ परेड, कोलाबा

मुंबई-400005, दिनांक 1 अप्रैल 2001

संदर्भ बैंपवि. सं० आइ बी एस 1942/23-13-080/
 2000-01—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934
 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (ग) के अनु-
 सरण में भारतीय रिजर्व बैंक इसके द्वारा निदेश देता है कि उक्त
 अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित परिवर्तन किए
 जाएंगे, अर्थात्

“दि सुमितोमो बैंक लिमिटेड” शब्दों के स्थान पर

“सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन” शब्द रखे जाएंगे।

के० एल० खेतरेपाल
 कार्यपालक निदेशक

संदर्भ बैंपवि. सं० आइ बी एस 1943/23-13-080/
 2000-01—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934
 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड
 (ख) के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक इसके द्वारा निदेश
 देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची से निम्न-
 लिखित का नाम निकाल दिया जाए :

“दि सकूरा बैंक लिमिटेड”।

के० एल० खेतरेपाल
 कार्यपालक निदेशक

RESERVE BANK OF INDIA
CENTRAL OFFICE
(DEPARTMENT OF BANKING OPERATIONS &
DEVELOPMENT)
Centre-1, World Trade Centre
Cuffe Parade, Colaba

Mumbai-400 005, the 1st April 2001

Ref. DBOD No. IBS 1942/23.13.080/2000-01—In pursuance of clause (c) of sub-section (6) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs that the following alterations shall be made in the Second Schedule to the said Act namely :—

For the words “The Sumitomo Bank, Limited”
the words

“Sumitomo Mitsui Banking Corporation” shall be substituted.

K. L. KHETARPAUL
Executive Director

Ref. DBOD No. IBS 1943/23.13.080/2000-01—
In pursuance of clause (b) of sub-section (6) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs the exclusion from the Second Schedule to the said Act of the following :—

“The Sakura Bank, Limited”

K. L. KHETARPAUL
Executive Director

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अधिनियम, 1966 (1966 के 53वें) की धारा 20 की उप-धारा (2) के अनुसार, कक्षित वर्ष 1998-99 के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा तथा लेखा-परीक्षा प्रमाण-पत्र प्रकाशित किया जा रहा है।

एस० नन्दक्योलयार
वित्त-प्रकारिकारी

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

वार्षिक - लेखा

1998 - 99

1998-99 के दौरान प्राप्त अनुदान और किए गए खर्च का विवरण
(भाग-वार)

	भाग-1 अनुसंधान खाता (योजनेतर)	भाग-2 विकास खाता (योजनागत)	भाग-3 उद्दिष्ट (विशेष) निधि खाता	भाग-4 ऋण, जमा आदि का खाता	भाग-5 अध्येतावृत्ति खाता	योग
अब शेष	बि०अ०आ० से अनुदान विश्वविद्यालय प्राप्तियां					
(1-4-1998) को	5,01,78,200	1,35,26,332	2,54,23,721	1,01,32,605	88,71,131	10,92,26,331
1998-99 के	10,94,342					
दौरान प्राप्तियां	46,12,86,000	6,00,82,411	7,54,34,557	23,31,02,289	6,10,52,118	92,56,51,360
	3,46,93,985					
योग	51,14,64,200					
	3,57,88,327	7,36,08,743	10,08,58,278	24,32,34,894	6,99,23,249	1,03,48,77,691
1998-99 के	36,73,65,350					
दौरान अदा- करियां	1,70,37,723	6,20,20,330	6,43,81,220	22,92,42,735	3,80,74,947	77,81,22,305
अन्त शेष	(31-3-99 को)	14,40,93,850*	1,15,88,413	3,64,77,058	1,39,92,159	3,18,48,302
	25,67,55,386					
	1,87,50,4604					

*यह राशि 5वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए 31 मार्च, 1999 को प्राप्त अनुदान को दर्शाती है।

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

प्राप्ति और अदायगी-लेखा (पृष्ठ 2486-2524) पांच भागों में, 1 से 5 तक विभक्त है। इनमें निम्नलिखित लेन-देन आते हैं :

1. अनुरक्षण (योजनेतर) खाता विश्वविद्यालय के योजनेतर खातों से संबंधित प्राप्तियों और अदायगियों का लेखा-जोखा तथा संबंधित प्राप्तियों का विवरण।
2. विकास (योजना) खाता आठवीं पंच-वर्षीय योजना के वित्तीय प्रावधानों में से विश्वविद्यालय के विकास पर होने वाले व्यय तथा उससे संबंधित प्राप्तियों का विवरण।
3. उद्दिष्ट (विशेष) निधि खाता भारत सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राज्य सरकारों, पीठों, वृत्तिदान, न्यास-निधियों आदि से विशिष्ट प्रयोजनों के लिए प्राप्त अनुदान और उनमें से किये गये व्यय का लेखा-जोखा।
4. ऋण, जमा आदि का खाता ऋण, जमा आदि शीर्षों के अंतर्गत होने वाली प्राप्तियों और खर्चों का लेखा-जोखा।
5. अध्येतावृत्ति खाता "कोई दिया गया एक समय" योजना के आधार पर शोध अध्येतावृत्ति के संबंध में प्राप्तियों और अदायगियों का लेखा-जोखा।

1998-99 का प्राप्ति और अदायगी-लेखा

भाग-1; अनुरक्षण (मोजनेतर) खाता

प्राप्तियाँ	(अंकड़े रुपयों में हैं)	
राजस्व		
अन्य शेष		
अनुदान	56,925	
हाल रोकड़	2,681	
बैंक शेष		
(1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान	5,01,78,200	
(2) विश्वविद्यालय प्राप्तियाँ	10,44,736	5,12,72,942
1. अनुदान		
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग		
(अनुरक्षण "एक मुश्त" अनुदान)		46,12,86,000
2. छात्रों की फीस :—		
(क) शैक्षणिक	86,81,735	
(ख) परीक्षा	51,385	
(ग) अन्य	66,737	87,99,857
3. छात्रावास की फीस		5,17,126
4. भूमि भवन तथा अन्य सम्पत्ति से आय :		
(क) कर्मचारी आवास-गृह का किराया	19,69,649	
(ख) अतिथि-गृह का किराया	8,42,282	
(ग) दुकानों का किराया	10,14,302	
(घ) स्टेट बैंक, आई० सी० एच० आर० एंड पोस्ट आफिस		
आदि से किराया	6,81,017	
(च) गोमती अतिथि-गृह	9,34,633	54,41,883
5. प्रकाशन :—		
(रायजटीज)		75,278

1998-99 का प्राप्ति और अदायगी-सेवा

भाग-1, अनुरक्षण (योजनेतर) खाता

अदायगियाँ	(आंकड़े रुपये में हैं)	
1. प्रशासन :		
(1) कुलपति का कार्यालय	17,62,477	
(2) कुलदेशिक का कार्यालय	6,61,271	
(3) कुलसचिव का कार्यालय	1,73,18,988	
(4) वित्त एवं लेखा विभाग (जिसमें आंतरिक लेखा-परीक्षा भी शामिल है)	1,17,06,029	
(5) बीन का प्रशासन कार्यालय	60,33,932	3,74,82,697
2. सामान्य सेवाएं तथा सामान्य प्रभार :		
(1) यात्रा भत्ता :-		
(1) ई० सी० /ए० सी० /एफ० सी० कोर्ट के सदस्य	1,69,867	
(2) चयन समिति और अध्ययन बोर्ड आदि के सदस्य	4,31,842	
(3) विश्वविद्यालय के स्टाफ सदस्य	84,812	
(4) प्रथम नियुक्ति पर तथा साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने के लिए बुलाये गये उम्मीदवारों को प्रदत्त यात्रा भत्ता	1,07,837	
	7,94,358	
(2) डाक व तार	12,73,169	
(3) लेखन सामग्री की खरीद	7,24,394	
(4) टेलीफोन अनावर्ती	24,00,458	
अनावर्ती (अग्रिम)	71,190	
(5) (क) टंकण यंत्रों, डुप्लीकेटर्स, जीरोक्स मशीन आदि की मरम्मत तथा लेन देन	3,90,178	
(ख) कमरे/वाटरकूलर/हीटर/पंप/ए०सी० आदि की मरम्मत करना	1,73,258	
(6) फर्नीचर की मरम्मत/पालिश करना	90,452	
(7) फर्नीचर की मरम्मत/पालिश करना	2,51,311	
(7) विद्युत प्रभार	4,41,38,119	
(8) जल प्रभार	64,89,471	
(9) स्टाफ कार का अनुरक्षण	8,65,443	
(10) बर्षी	15,53,144	
(11) एन० ए० ए० परिसर का निराया	9,02,351	
(12) रजिस्ट्रों और फाइलों की छपाई	3,09,482	
(13) मनोरंजन	1,50,342	
(14) विज्ञापन	4,78,688	
(15) विधि (कानून) संबंधी खर्चे	81,400	
(16) इरे और कर	582	
(17) प्रशासन कंयूटर का अनुरक्षण	10,611	
(18) सफाई खर्चे	4,02,906	
(19) अन्य अकस्मिकताएं	10,97,087	6,26,46,395

प्राप्तियां

(आंकड़े रुपये में हैं)

अवयवियाँ

(आंकड़े रुपये में - ₹)

3. शैक्षिक कार्यक्रम :--

क. संस्थान

1. सामाजिक विज्ञान संस्थान :--

(1) वेतन	3,36,51,463
(2) अन्य प्रभार	5,55,246
(3) अनावर्ती	84,241

2. अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान :--

(1) वेतन	2,24,16,925
(2) अन्य प्रभार	12,73,821

3. भाषा साहित्य एवं संस्कृति अध्ययन संस्थान :--

(1) वेतन	2,74,71,082
(2) अन्य प्रभार	2,95,562
(3) अनावर्ती	13,808
(4) अनावर्ती (अग्रिम)	61,971

4. जीवन विज्ञान संस्थान :--

(1) वेतन	99,41,436
(2) अन्य प्रभार	19,73,713
(3) अनावर्ती	3,36,136

5. पर्यावरण विज्ञान संस्थान :--

(1) वेतन	87,33,033
(2) अन्य प्रभार	5,81,816
(3) अनावर्ती	45,557
(4) अनावर्ती (अग्रिम)	1,40,800

6. कंप्यूटर और पद्धति विज्ञान संस्थान :--

(1) वेतन	54,49,142
(2) अन्य प्रभार	4,45,433
(3) अनावर्ती	95,065
(4) अनावर्ती (अग्रिम)	1,03,774

7. भौतिक विज्ञान संस्थान :--

(1) वेतन	44,91,872
(2) अन्य प्रभार	3,82,218
(3) अनावर्ती	75,510

 11,76,20,524

प्राप्ति

(आपके दायरे में है)

अदायगियां

(आंकड़े रुपये में हैं)

ख. केन्द्रीकृत सुविधाएं :—

1. विश्वविद्यालय विज्ञान सेवाएं और यंत्रण केन्द्र की स्थापना (यूसिक) :—

(1) वेतन	17,71,500
(2) अन्य प्रभार	64,317

2. प्राणी-गृह :—

(1) वेतन	9,33,380
(2) अन्य प्रभार	4,29,303

3. वानस्पति उद्यान—

(1) वेतन	2,94,495
(2) अन्य प्रभार	10,427

4. संचार व सूचना केन्द्र—

(1) वेतन	7,21,118
(2) अन्य प्रभार	4,90,021
(3) अनावर्ती	5,000

5. केन्द्रीय सुविधाओं का अनुरक्षण—उपकरण—

47,19,561

ग. अन्य एकल योजनाएं—

1. जीव-प्रीयोगिकी में बहुविषयक शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम—

(1) वेतन	27,66,887
(2) अन्य प्रभार	81,580
(3) अनावर्ती	1,24,909
(4) अनावर्ती (अग्रिम)	17,697

2. प्रौढ़ अग्रवर्ती शिक्षा व विस्तार यूनिट

(1) वेतन	8,92,435
----------	----------

3. विशेष सहायता कार्यक्रम—

(क) सामाजिक विज्ञान संस्थान—

(1) सामाजिक पद्धति अध्ययन केन्द्र (वेतन)	6,47,244
(2) क्षेत्रीय विकास अध्ययन केन्द्र (वेतन)	10,17,810
(3) जीवन विज्ञान संस्थान (वेतन)	7,43,280

64,91,842

घ. अन्य विविध शैक्षिक गतिविधियां

42,62,456

13,30,94,383

4. परीक्षाएं

18,94,966

प्राप्तियां

(आंकड़े रुपये में हैं)

अदायगियां	(आंकड़े रुपये में हैं)
5. पुस्तकालय—	
(1) वेतन	1,75,09,784
(2) पुस्तकें और पत्रिकाएं	1,22,20,480
(3) पत्रिकाएं और समाचार-पत्र	—24,497
(4) अन्य प्रभार	2,83,674
(5) अनावर्ती	—15,951
(6) अनावर्ती (अग्रिम)	1,09,883
	3,01,64,269
6. छात्र सुविधाएं—	
(1) डीन (छात्र)—	
(क) वेतन	18,37,331
(ख) अन्य प्रभार	19,923
(2) शारीरिक शिक्षण और खेलकूद गतिविधियां व खेल—	
(क) वेतन	8,32,909
(ख) अन्य प्रभार	3,58,540
(3) छात्र स्वास्थ्य केन्द्र—	
(क) वेतन	22,74,281
(ख) अन्य प्रभार	7,23,306
(4) छात्र संघ कार्यालय—	
(क) वेतन	88,182
(5) अन्य सुविधाएं—छात्रों की बसें—	
(क) वेतन	3,51,783
(ख) अन्य प्रभार	83,491
	66,09,746
7. छात्रवृत्तियां :	8,42,282
8. छात्रावास—	
(क) वेतन	1,50,80,844
(ख) अन्य प्रभार	11,77,389
(ग) अनावर्ती—	
(क) उपकरण	1,46,063
(ख) फर्नीचर	51,710
(घ) अनावर्ती (अग्रिम)—	
(क) उपकरण	1,70,847
(ख) फर्नीचर	26,000
	1,66,52,853
9. प्रकाशन—	
(क) वेतन	4,35,778
(ख) अन्य प्रभार	1,83,730
10. अन्य विभाग—	
क. इंजीनियरी विभाग—	
(1) वेतन	1,57,03,896
(2) संपत्ति का रखरखाव—	
(1) आबर्ती	39,16,580
(2) अनावर्ती (अग्रिम)	10,200

प्राप्ति

(आंकड़े रुपये में हैं)

अवयवविधि	(आंकड़े रुपये में हैं)
(3) छोटे-मोटे काम—	
(क) आवर्ती	3,50,223
(4) अनुरक्षण और जल पम्प का प्रबालन	68,811
(5) गाड़ियों का रख-रखाव	43,839
(6) अन्य प्रभार	26,636
(7) उद्यान का अनुरक्षण—	
(क) आवर्ती	6,83,886
(ख) छोटे-मोटे काम (आवर्ती)	2,88,272
(8) भवनों की बड़ी मरम्मत—	
(क) आवर्ती	23,36,292
(ख) अनावर्ती	78,695
	2,34,77,330
(ग) सफाई अमला (वेतन)	1,10,52,798
(घ) सुरक्षा अमला (वेतन)	1,19,80,454
(च) सम्पदा कार्यालय (वेतन)	32,04,244
(छ) गोमती अतिथि-गृह—	
(1) वेतन	5,89,607
(2) अन्य प्रभार	45,224
(ज) अरावली अतिथि-गृह तथा संकाय क्लब—	
(क) आवर्ती	3,04,934
(ख) अनावर्ती	18,500
	5,06,73,091
11. विविध—	
क. विभिन्न शैक्षिक मंडलों/संस्थाओं को प्रदत्त सदस्यता और अंशदान	1,26,328
ख. प्रयोगशाला बीमा-किस्त	—
ग. प्रशासन कार्यालयों तथा संकायों के लिए कर्मचर तथा सुविधाएं	5,79,743
अग्रिम	12,040
घ. प्रयोगशाला के लिए कर्मचर	—
ङ. विश्वविद्यालय के प्रशासनिक तथा संकाय कार्यालयों के लिए अन्य उपस्कर तथा सुविधाएं	5,12,998
अग्रिम	—69,450
च. डेजर्ट/बाटर कूलरों और एयर कंडीशन	1,95,476
छ. अन्य मदें—	
(1) छुट्टी पर यात्रा में रियायतें	28,27,648
(2) कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा (सी० जी० एच० एस० का अंशदान)	48,29,516
(3) समयोपरि भत्ता	26,54,698
(4) शिक्षण-शुल्क की प्रतिपूर्ति/बाल-शिक्षा भत्ते हेतु अंशदान	61,194
(5) बोधान्त समारोह व्यय तथा शैक्षणिक रोन्स	80,950
(6) रक्षा संगठनों से संबंधित व्यय	6,206
(7) कुलपति की स्वनिर्णयगत निधि	1,00,000
(8) हवाई तारों पर अग्रिम राशिबां	7,75,800
(9) दैनिक मजदूरी	62,65,958

प्राप्तियां

(आंकड़े रुपये में हैं)

6. विविध		
(1) निविदा पत्रों तथा समाचार पत्रों की बिक्री आदि	—23,265	
(2) सी० जी० एच० एस० की बसूलियां	4,06,801	
(3) रक्षा संस्थानों से प्राप्तियां	1,33,245	—
(4) अन्य प्राप्तियां	68,32,434	73,94,745
7. प्रवेश-पत्रों की बिक्री और प्रवेश परीक्षा शुल्क		84,34,640
8. अनुदानों के निवेश पर अर्जित व्याज—		
(1) निवेश	10,23,968	— —
(2) बचत बैंक खाता	5,21,799	15,44,867
9. बसूलियां/प्राप्तियां/वापसियां—		
(1) लघुहारां पर अग्रिम		4,06,244
(2) बाह्य अग्रिम निधि खाता से स्थानांतरित राशि		5,70,989
10. निवेश भुनाए		15,00,000
11. प्राप्तियां/बसूलियां/वापसी		
12. प्रतिक्षित बसूलियां/प्राप्तियां- अदायगी हेतु अवितरित राशि		8,356
कुल योग		54,72,52,527

1998-99 का प्राप्त और अदायगी-लेखा

भाग-2, विकास (बोजमागत) खाता

र० प० र० प०

प्राप्तियां

(आंकड़े रुपये में हैं)

अथ शेष—		
अप्रदाय	—4,100	— —
बैंक रोकड़	1,35,22,232	1,35,26,332
1. अनुदान—		
क. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग—		
(1) आकर्षी अनुदान	67,80,506	
(2) निम्नलिखित के लिए अनाकर्षी अनुदान—		
क. विश्वविद्यालय परिसर का विकास	1,70,00,000	
ख. अन्य पूंजीगत अनुदान	13,50,000	2,51,30,505

अदायगियां	(आंकड़े रुपये में हैं)	
(10) कर्मचारियों को प्रदत्त मानवेल	2,30,700	
(11) स्टाफ के लिए विशेष व्याख्यान और प्रशिक्षण	15,488	
(12) बोनस	24,10,310	
(13) जांच अधिकारी को मानदेय (श्री ए० के० माथुर)	6,984	
(14) संकाय क्लब को अनुदान	5,000	—
(15) छात्रों के लिए किराए पर लिए गए मकान का किराया	6,65,000	2,23,60,497
12. भविष्य निधि खाता और पेंशन—		
(1) भविष्य-निधि अंशदान	10,04,994	
(2) सामूहिक बीमा जमा	1,17,561	
(3) पेंशन	1,40,54,998	
(4) उपदान	29,54,260	
(5) पेंशन का कम्प्यूटिड मूल्य	12,05,124	—
(6) छुट्टियों का तकदीकरण	19,20,768	2,12,57,705
13. मूल्यह्रास आरक्षित निधि		1,00,000
योग		38,44,00,392
पिछले वर्ष की प्राप्तियों/वसूलियों की प्रेषणाएं		
अदायगी के लिए अतिरिक्त राशि		2,681
अंत शेष—		
(1) अदाय	66,525	
(2) हाथ रोकड़	8,961	
(3) बैंक शेष—		
(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान	14,40,98,850*	
(ख) विश्वविद्यालय प्राप्तियां	1,86,75,118	16,28,40,454
कुल योग:		54,72,52,527

*यह राशि 5वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए 31 मार्च 1999 को प्राप्त अनुदान को दर्शाती है।

1998-99 का प्राप्त और अदायगी—लेखा

भाग-2, विकास (नोजनगत) खाता

अदायगियां	(आंकड़े रुपये में हैं)	
आवर्ती :—		
1. शैक्षणिक कार्यक्रम :—		
(क) संस्थान		
(1) अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान—		
(क) छाड़ी अध्ययन (अन्य प्रभार)	97,975	
(ख) सोवियत अध्ययन—		
(1) वेतन	-94,750	
(2) अन्य प्रभार	2,83,593	

प्राप्तियाँ	(आंकड़े रुपये में हैं)	
क. अनुदान विशेष पर अर्जित व्याज		26,81,574
ग. अन्य संस्थाएं—		
(1) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (जैन-प्रौद्योगिकी विभाग)	50,94,000	
(2) सामाजिक न्याय और अधिकार मंत्रालय— (अनुसूचित जाति के छात्रों और छात्राओं के छात्रावासों के लिए केन्द्रीय सहायता)	1,23,80,150	1,74,74,150
2. निम्नलिखित से संबंधित विविध प्रप्तियाँ/वसूलियाँ/बावर्ची/समावोजन— आवर्ती—		
क्षेत्रीय अध्ययन कार्यक्रम (सोवियत अध्ययन)		65,073
3. निवेश जुनाए (बचत बैंक खाता)		1,99,171

अदायगियां	(भोक्के रुपों में है)	
(ग) सूचना प्रलेखन केन्द्र— (मानवाधिकार-शिक्षण व शोध)	11,940	4,88,258
(ख) विविध अन्य शैक्षिक गतिविधियां —		
1. एकेडमिक स्टाफ कालेज		
(1) वेतन	11,12,547	
(2) अन्य प्रभार	32,38,147	43,50,694
2. विशेष सहायता विभाग कार्यक्रम (डी० एस० ए०) एस० एस० एस०		
(क) सामाजिक पद्धति अध्ययन केन्द्र		
(1) अन्य प्रभार	1,45,034	
(ख) ऐतिहासिक अध्ययन केन्द्र		
(1) अन्य प्रभार	82,343	
(ग) जाकिर हुसैन शैक्षिक अध्ययन केन्द्र		
(1) वेतन	1,16,267	
(2) अन्य प्रभार	1,70,379	
(घ) आर्थिक अध्ययन और नियोजन केन्द्र		
(1) अन्य प्रभार	48,083	
(च) क्षेत्रीय विकास अध्ययन केन्द्र		
(1) अन्य प्रभार	1,16,635	
(छ) जीवन विज्ञान संस्थान	4,01,634	10,80,375
3. डी० आर० एस० स्तर की वि० वि० अ० आ० की सहायता (विशेष सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत)		
(1) राजनीतिक अध्ययन केन्द्र (एम० एम० एस०) अन्य प्रभार	72,217	
(2) भौतिक विज्ञान संस्थान		
क. अन्य प्रभार	40,006	
ख. अनावर्ती	11,305	
(3) पर्यावरण विज्ञान संस्थान		
(क) अन्य प्रभार	1,61,200	
(ख) अनावर्ती	12,000	2,96,728
ग. अन्य एकल योजनाएं—		
क. जैव प्रौद्योगिकी में बहुआयामी शिक्षण और प्रशिक्षण का विकास—		
(1) अन्य प्रभार	11,42,756	
(2) अनावर्ती	26,750	
(3) अनावर्ती (अग्रिम)	55,413	
(4) छात्रवृत्ति/रिसर्च ऐसोसिएटशिप	2,20,932	14,45,851
ख. वी० आई० सी० बायोइन्फार्मेटिक्स—		
(1) वेतन	7,02,357	
(2) अन्य प्रभार	8,71,388	
(3) अनावर्ती	2,42,950	18,16,695

प्राप्तियां

(अंकड़े रुपयों में हैं)

अवयवगण	(आंकड़े रुपये में हैं)	
ग. प्रौढ़ अनुवर्ती शिक्षा विस्तार यूनिट (अन्य प्रभार)	500	
घ. इफिबलनेट प्रोग्राम (पुस्तकालय)		
(1) बेतन	36,000	
ड. जेंडर सेमिनार प्रोग्राम	17,000	
2. छात्रावास	1,78,855	
3. जैव-प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा—		
(क) अन्य प्रभार	13,93,138	
(ख) अनावर्ती	60,000	14,53,138
डाटा नेटवर्किंग सिस्टम		36,258
योग—राजस्व खाता		1,12,00,352
ख. पूंजीगत खाता		
क. विषयविद्यालय परिसर का निर्माण—		
1. संस्थान भवन—		
(1) जीवन विज्ञान संस्थान भवन का निर्माण	2,55,574	
(2) सामाजिक विज्ञान संस्थान भवन के अतिरिक्त प्लोर का निर्माण	2,55,574	
(3) पर्यावरण संस्थान भवन का निर्माण	2,09,484	
(4) भौतिक विज्ञान संस्थान भवन का निर्माण (डी० आर० एस०/एस० ए० पी०)	80,000,	8,00,632
2. पुस्तकालय भवन		5,000
3. आवासीय भवन—		
(1) 200 छात्रों के लिए —		
छात्रावास का निर्माण	1,84,534	
(2) 100 छात्रों के लिए छात्रावास		
का निर्माण	18,05,057	
(3) कामकाजी महिलाओं के लिए —		
छात्रावास का निर्माण	10,22,540	
(4) वरिष्ठ संकाय सदस्यों के लिए		
25 ट्रांजिट मकानों का निर्माण	35,62,057	
के० लो० नि० बि० को अग्रिम	65,30,234	
(5) पश्चिमाबाद में टाइट-I के 14 मकानों का निर्माण	2,35,000	
(6) अतिथि गृह और फैंकल्टी क्लब का निर्माण	64,695	
(7) पोस्ट डाक्टरल शोध छात्रों के लिए छात्रावास		
(फेज-2) का निर्माण—		
के० लो० नि० बि० को अग्रिम	11,75,000	1,45,79,117
3. विविध भवन—		
(1) सभागार और सम्मेलन परिसर का निर्माण	10,18,221	
के० लो० नि० बि० को अग्रिम	14,47,827	
(2) सम्पदा कार्यालय, बाह्य शोध और कार्यशाला का निर्माण	1,41,893	
(3) खेल परिसर का निर्माण	8,906	
(4) बायोकंटेनमेंट फैसिलिटी का निर्माण—		
(परीक्षाधीन संक्रमित पशुओं के संरक्षण हेतु)	1,65,000	

प्राप्तियां

(आंकड़े रुपये में हैं)

अवयवगण

(आकड़े रुपये में हैं)

(5) परिसर विकास के तहत विशेष मरम्मत कार्य—	88,900	28,70,549
(क) विश्वविद्यालय परिसर का निर्माण		1,82,55,298
ख. अन्य पूंजीगत व्यय		
1. उपकरण—		
1. जीवन विज्ञान संस्थान	18,80,829	
अग्रिम	3,96,900	
2. पर्यावरण विज्ञान संस्थान	14,012	
अग्रिम	2,82,836	
3. भौतिक विज्ञान संस्थान	3,91,989	
अग्रिम	2,36,571	
4. सामाजिक विज्ञान संस्थान	7,77,760	
5. भाषा साहित्य और संस्कृति अध्ययन केन्द्र	8,74,250	
6. विश्वविद्यालय सेवाएं और यन्त्रीकरण केन्द्र (यूनिक्स)	2,950	
अग्रिम	47,700	
7. सोवियत अध्ययन	24,254	
8. जैव-प्रौद्योगिकी केन्द्र	2,992,200	52,02,251
ख. अकादमिक स्टाफ कालेज		16,594
ग. डाटा नेटवर्किंग सिस्टम		42,25,235
घ. अन्तरहाल प्रशासन		71,401
ङ. छात्रावास (तापति)	1,89,908	
अग्रिम	19,000	2,08,988
च. योगा केन्द्र की स्थापना		40,000
छ. विशेष सहायता कार्यक्रम विभाग (डी०एस०ए०)—		
1. सामाजिक पद्धति अध्ययन केन्द्र	56,646	
2. क्षेत्रीय विकास अध्ययन केन्द्र	29,815	
3. ऐतिहासिक अध्ययन केन्द्र	17,360	
4. जीवन विज्ञान संस्थान	2,47,059	
5. प्राणी गृह का विकास (एस०एल०एस०-2)	59,700	4,10,580
ज. डी०आर०एस०/एस०ए०पी० स्तर की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता—		
(1) राजनीतिक अध्ययन केन्द्र	55,200	
(2) भौतिक विज्ञान संस्थान	1,15,623	
अग्रिम	7,728	
(3) पर्यावरण विज्ञान संस्थान	1,72,015	
अग्रिम	4,88,756	8,39,322
(घ) जैव-प्रौद्योगिकी कार्यक्रम—		
(1) उपस्कर	3,79,694	
अग्रिम	8,938	3,88,632
जैव सूचना केन्द्र (डी०आर्डी०सी०) (अग्रिम)		3,90,000
योग-1 (उपस्कर)		1,17,93,003

प्राप्तियाँ

(आंकड़े रुपये में हैं)

4. जैव-प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा--

1. प्रवेश फार्मों की बिक्री/परीक्षा शुल्क

18,31,937

5. निवेश भुनाए

1,27,00,000

कुल योग

7,36,08,743

अदायगीया	(आंकड़े रुपये में हैं)	
2. पुस्तकें और पत्रिकाएं ---		
(क) केन्द्रीय पुस्तकालय	19,83,935	
(ख) अकेडमिक स्टाफ कालेज	78,760	
(ग) जैव-प्रौद्योगिकी कार्यक्रम	1,47,250	
(घ) खाड़ी अध्ययन	82,882	
(ङ) सोवियत अध्ययन	1,36,101	
(च) डी० एस० ए० कार्यक्रम ---		
(1) आर्थिक अध्ययन और नियोजन केन्द्र	4,351	
(2) सामाजिक पद्धति अध्ययन केन्द्र	1,41,054	
(3) ऐतिहासिक अध्ययन केन्द्र	1,64,632	
(4) जाकिर हुसैन शैक्षणिक अध्ययन केन्द्र	36,885	
(5) क्षेत्रीय विकास अध्ययन केन्द्र	24,021	
(छ) डी० आर० एस०/एस० ए० पी० ---		
(क) भौतिक विज्ञान संस्थान	18,239	
(ख) राजनीतिक अध्ययन केन्द्र	90,660	
(ज) प्रलेखन सूचना केन्द्र		
(मानवाधिकार शिक्षण व शोध) :	7,349	
(झ) जैव सूचना केन्द्र	10,513	29,26,642
3. फर्नीचर ---		
(1) छात्रावास (ताप्ती) :	76,664	
(2) डी० आर० एस०/एस० ए० पी० राजनीतिक अध्ययन केन्द्र (सा० वि० सं०) अग्रिम :	23,746	
(3) प्रलेखन सूचना केन्द्र (मानवाधिकार शिक्षण व शोध)	29,127	1,29,537
4. वाहनों की खरीद		7,15,498
योग—ख—अन्य पूँजीगत व्यय		1,55,64,680
योग—खंड (क+ख)		4,50,20,330
निधियों का निवेश		1,70,00,000
अंत शेष—	—	
(1) अग्रदाय	5,000	
(2) बैंक रोकड़	1,15,83,413	1,15,83,413
कुल योग :		7,36,08,743

1998-99 का प्राप्ति और अदायगी—लेखा

प्राप्तियां	(आंकड़े रुपये में हैं)
अथ शेष	
उद्दिष्ट निधि -- खाता --	
बैंक	2,36,93,139
जैनेटिक इंजीनियरी यूनिट खाता --	
अग्रदाय	3,000
बैंक	11,04,787
एक्जिम बैंक लाइब्रेरी	3,14,978
सामाजिक प्रजातंत्र संगोष्ठी खाता	3,07,817
एम० बी० आई० शोध एवं विकास निधि खाता	2,54,23,721
1. विशिष्ट प्रयोजन --	
क. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	7,94,176
ख. भारत सरकार --	
(1) जैनेटिक इंजीनियरी यूनिट	15,81,600
(2) भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद्	1,38,902
(3) अन्य परियोजनाएं	3,11,28,537
ग. विदेशी संस्थाएं/सरकारें--	
(1) इम्पीरियल कालेज ऑफ सिलवुड पार्क	4,05,030
(2) फोर्ड फाउण्डेशन	25,845
(3) न्यूजीलैंड उष्ण आयोग	2,18,600
(4) यूरोपीय आर्थिक आयोग	4,94,813
(5) विश्व स्वास्थ्य संगठन	2,56,310
(6) पोद्स मैमोग्रियन फण्ड फाउण्डेशन	3,38,000
(7) यूनेस्को	3,34,028
(8) अन्तर्राष्ट्रीय विकास शोध केन्द्र	3,500
(9) कोरियन फाउण्डेशन	5,32,712
(10) मैसटेक, यू० ए० ए०	10,05,727
(11) इटालियन एम्बेसी	84,360
(12) कृषि विभाग, यू० एस० ए०	5,00,000
(13) संयुक्त राष्ट्र उच्चआयोग	42,500
(14) जापान फाउण्डेशन	5,94,939
(15) शास्त्री-इण्डो कनेडियन इंस्टीट्यूट	2,72,500
(16) संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या फण्ड	3,15,000
घ. अन्य संस्थाएं --	
(1) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्	50,74,791
(2) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्	4,40,926
(3) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद्	1,14,020
(4) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद्	30,000
(5) भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी	1,46,050
(6) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्	10,000
(7) नाभिकीय विज्ञान केन्द्र	1,32,500

भाग-3, उद्दिष्ट (विशेष) निधि—खाता

अदायगियां	(आंकड़े रुपयों में हैं)	
1. विशिष्ट प्रयोजन		
क. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग		
क. आवर्ती	12,64,358	
ख. अनावर्ती	55,300	13,19,658
ख. भारत सरकार		
(1) जैनेटिक इंजीनियर यूनिट		
(क) आवर्ती	12,45,554	
(ख) अनावर्ती	5,08,664	17,54,218
(2) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद		92,805
(3) अन्य परियोजनाएं —		
(क) आवर्ती	1,82,31,632	
(ख) अनावर्ती	52,89,029	
(ग) अनावर्ती (अग्रिम)	31,58,602	
(घ) के० लो० नि० वि० भवन का निर्माण	30,290	2,67,09,553
ग. विदेशी अभिकरण/सरकारें—		
—कोरियाई फाउंडेशन		60,000
—फोर्ड फाउंडेशन		
(क) आवर्ती	7,30,187	
(ख) अनावर्ती (पुस्तकें)	2,23,512	9,53,699
—जापान फाउंडेशन		3,88,000
—यूनेस्को—		
(क) आवर्ती	5,85,380	
(ख) अनावर्ती	1,03,859	6,89,239
—राष्ट्रीय सेवा योजना फाउंडेशन		1,17,024
—संयुक्त राष्ट्र उच्च आयोग		33,800
—यूरोपीय आर्थिक आयोग		1,38,358
—मिन्चुङ्पाक स्थित इम्पीरियल कालेज—		
(क) आवर्ती	1,29,989	
(ख) अनावर्ती	49,000	1,78,989
—शाम्बरी इण्डो केनेडियन इंस्टीट्यूट		50,380
—यू० ए० डिपार्टमेंट आफ एग्रीकल्चर		3,70,701
—यूनिवर्सिटी आफ नार्थ कैरोलिना यू० ए० ए०—		
(क) आवर्ती	1,00,032	
(ख) अनावर्ती	75,500	1,75,532
—विश्व स्वास्थ्य संगठन		3,76,521
—ओपन सोसायटी इंस्टीट्यूट यू० ए० ए०		38,368
—पोट्स मेमोरियल फाउंडेशन		4,47,952

प्राप्तियाँ	(आंकड़े रुपयों में हैं)
(8) प्रशासनिक अतिरिक्त शीर्ष प्रकार	20,12,148
(9) मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड	6,22,000
(10) राष्ट्रीय मेवा योजना	600
(11) राष्ट्रीय उर्दू भाषा उन्नयन परिषद्	30,000
(12) सी० बी० टी० प्रशासनिक अतिरिक्त शीर्ष प्रकार	1,44,000
(13) मद्रास अर्थशास्त्र स्कूल	2,50,000
(14) साहित्य अकादमी	2,00,000
2. अभ्येतावृत्तियाँ और छात्रवृत्तियाँ—	
(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	4,75,512
(ख) भारत सरकार	72,85,782
(ग) राज्य सरकारें	6,36,014
(घ) अन्य संस्थाएँ—	
(1) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्	34,63,321
(2) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्	13,07,259
(3) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद्	1,23,300
(4) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद्	45,521
(5) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्	20,861
(6) भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी	15,000
(7) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद्	26,000
(8) भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद्	22,300
3. पुरस्कार और वृत्तिदान—	
(1) अर्जित ब्याज	22,16,221
(2) वृत्तिदान	15,06,672
4. अन्य प्राप्तियाँ—	
—सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम —	
(क) सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत नियुक्त किए गए शिक्षकों को दिया गया वेतन	5,27,307
(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग—शोध विज्ञानी	33,64,135

अदायगियां

(आंकड़े रुपये में हैं)

—इटालियन एम्बेसी		58,734
—न्यूजीलैंड हार्डि कमीशन—		
(क) आवर्ती	3,949	
(ख) अनावर्ती	1,03,683	1,07,632
—संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या फंड		1,34,281
घ. अन्य संस्थाएं ---		
(1) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्—		
(क) आवर्ती	33,45,281	
(ख) अनावर्ती	1,86,563	
(ग) अनावर्ती (अग्रिम)	2,07,367	37,39,211
(2) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्		5,23,332
(3) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद्		52,069
(4) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद्		2,57,845
(5) विकास अध्ययन केन्द्र		49,878
(6) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्		1,66,621
(7) अतिरिक्त जीर्ण प्रभार का भुगतान		1,44,582
(8) मैमर्स हिन्दुस्तान लीडर लिमिटेड		11,14,428
(9) भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी		1,31,442
(10) नाभिकीय विज्ञान केन्द्र		89,199
(11) राष्ट्रीय सेवा योजना		17,771
(12) राष्ट्रीय उर्दू भाषा उन्नयन परिषद्		28,500
(13) साहित्य अकादमी		2,00,000
2. अध्येतावृत्तियां और छात्रवृत्तियां—		
(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग		6,28,117
(ख) भारत सरकार		65,24,743
(ग) राज्य सरकारें		6,25,101
(घ) अन्य संस्थाएं ---		
(1) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्		32,24,531
(2) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्		12,41,590
(3) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद्		1,31,950
(4) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद्		74,381
(5) भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद्		43,003
(6) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्		18,000
(7) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्		12,500
(8) भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी		15,000

प्राप्तिमां

(आंकड़े रुपये में हैं)

निवेश पर अर्जित व्याज—

(1) उद्दिष्ट निधि—खाता से

24,72,958

(2) प्रशासनिक शीर्ष प्रभार से

6,43,302

बचत बैंक खाते पर अर्जित व्याज (इ० एम० एफ० खाता)

4,96,018

5. इन्विजम बैंक लाइब्रेरी/सोशल डेमोक्रेसी फंड—

बचत बैंक खाता पर अर्जित व्याज

1,25,961

6. एस० बी० आई० शोध एवं विकास निधि खाता

5,66,000

7. निवेश तकदीकरण

28,21,000

कुल योग

1,08,58,279

अदायगियां

(आंकड़े रुपये में हैं)

3. पुरस्कार और वृत्तिदान

क. (1) जवाहरलाल नेहरू प्रोफेसरशिप (चेयर ऑन एनवायरमेंटल ला)	2,16,410
(2) एम० जे० के० थावरराज स्मारक ट्रस्ट	15,877
(3) जूही प्रसाद पुरस्कार	2,000
(4) डा० उर्मिला फडनिस मेमोरियल फण्ड	1,500
(5) डा० रेफेल फर्नांडीन पुरस्कार (सी० पी० एस० की छात्रवृत्ति)	18,000
(6) डा० अम्बेडकर चेयर	6,34,183
(7) आर० बी० आई० चेयर	3,02,250
(8) राजीव गांधी फाउंडेशन	77,377
(9) तेंदुलकर ट्रस्ट	1,200
(10) कोरप्स फण्ड (सी० बी० टा०)	24,685

ख. निवेश

(1) वृत्तिदान (अ० जा०/अ० ज० जा० छात्र)	1,38,037
(2) फोर्ड फाउंडेशन	30,50,000

4. अन्य भुगतान—

क. सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम—

विभिन्न सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत
नियुक्ति किए शिक्षकों को वेतन

8,59,295

ख. यू० जी० सी० शोध विज्ञानी

28,24,175

निवेश

उद्दिष्ट निधि खाता से

25,00,000

इक्विजि बैंक लाइब्रेरी खाता—

अनावर्ती (पुस्तकें)

1,10,929

एस० बी० आई०—शोध एवं विकास निधि खाता—

(क) आवर्ती

1,92,665

(ख) अनावर्ती

1,59,400

3,52,065

अन्य शेष—

उद्दिष्ट निधि खाता

3,47,90,127

जेनेटिक इंजीनियरी यूनिट खाता—

अग्रदाय

3,000

बैंक

9,32,169

इक्विजि बैंक लाइब्रेरी खाता—

बैंक

2,16,003

सोशल डेमोक्रेसी फण्ड अकाउंट

3,21,824

एस० बी० आई०—शोध एवं विकास निधि खाता

2,13,935

3,64,77,058

कुल योग

10,08,58,279

1998-99 का प्राप्ति और अदायगी-लेखा

भाग-4, ऋण, जमा आदि का खाता

प्राप्तियाँ	(आकड़े रुपये में हैं)
अथ शेष—	
भविष्य निधि	63,999
अन्य जमा	70,02,078
भवन निर्माण निधि	30,66,528
	1,01,32,605
1. ऋण	
2. जमा—	
भविष्य निधि—	
कर्मचारियों का अभिवान	4,58,22,504
विश्वविद्यालय का अंशदान	10,81,820
वर्ष के दौरान अशदाता के खातों में	
समायोजित किया गया ब्याज	2,98,33,512
निवेश-नकदीकरण	6,17,56,000
निवेश पर प्राप्त ब्याज	4,08,47,983
	17,93,41,819
3. छात्र-निधि—	
छात्र सहायता-निधि	1,23,052
पाठ्यक्रमेतर कार्य-कलाप के शुल्क	2,18,988
छात्रों की प्रतिभूति जमा	69,472
छात्रावास की प्रतिभूति जमा	5,566
अन्य जमा (पुस्तकालय जमा, विविध	
जमा आदि)	9,500
	4,26,578
4. अन्य निधियाँ --	
कुलपति की स्वनिर्णयगत निधि	1,08,600
5. अन्य जमा—	
बयाना, धन, प्रतिभूति जमा	10,18,832
6. आरक्षित निधि --	
मुख्यध्वास आरक्षित निधि	2,66,100
मुख्यध्वास आरक्षित निधि पर प्राप्त ब्याज	58,931
निवेश मुनाए	5,00,000
	8,25,031
7. अन्य प्राप्तियाँ --	
गृह-निर्माण अग्रिम निधि की बावची	38,23,238
गृह-निर्माण निधि पर अर्जित ब्याज	78,44,426

1998-99 का प्राप्ति और अदायगी-लेखा
भाग-4, ऋण, जमा आदि का खाता

अदायगियां	(आंकड़े रुपये में हैं)	
1. ऋण		
2. जमा		
भविष्य निधि :--		
अग्रिम/आहरण /अन्तिम अदायगियां	3,72,29,059	
विश्वविद्यालय के अंशदान की अंतिम अदायगियां	12,47,250	
अभिदाताओं के खातों में दिया गया		
ब्याज	2,98,33,512	
निवेश	11,10,00,000	17,93,09,821
3. छात्र निधि :--		
छात्र सहायता निधि	72,231	
पाठ्येतर कार्यकलाप शुल्क	1,62,003	
छात्रों की प्रतिभूति जमा	840	
छात्रावास की प्रतिभूति जमा	500	
अन्य जमा	500	2,36,074
(पुस्तकालय जमा, विविध जमा आदि)		
4. अन्य निधियां :--		
कुलपति की स्वनिर्णयगत निधि		77,000
5. अन्य जमा :--		
बयाना /प्रतिभूति जमा		8,20,738
6. आरक्षित निधियां :--		
मूल्यह्रास आरक्षित निधि --		
निवेश	1,00,000	
—उपस्कर की खरीद	53,598	
—वाहन की खरीद	53,292	
—अनावर्ती (अग्रिम)	6,37,161	8,44,051
7. अन्य अदायगियां :--		
—भवन निर्माण अग्रिम निधि	63,93,780	
—वाहन/कंप्यूटर अग्रिम निधि में हस्तांतरण राशि	1,31,00,000	
—वाहन/कंप्यूटर अग्रिम	1,07,92,000	
—अनुरक्षण खाने में हस्तांतरण राशि	5,70,989	
—अनुरक्षण खाने में वापसी राशि	25,000	
स्टाफ सदस्यों के सामूहिक बीमा के लिए एल० आई० सी० को प्रीमियम की अदायगी	15,99,000	
एल० आई० सी० सामूहिक बीमे के दावों की अदायगी	13,18,258	
चैक डैम का निर्माण	1,51,961	
शोध कार्यकलाप और विशेष व्याख्यान --	89,319	
—पुस्तकें और पत्रिकाओं की खरीद (भौतिक विज्ञान संस्थान)	47,107	
—जे० एन० यू० रिज एनवायरनमेंट रिजेनरेशन स्कीम	48,250	3,41,35,664

प्राप्तियां	(आंकड़े रुपये में हैं)	
वाहन/कंप्यूटर अग्रिम निधि		
(गृह निर्माण निधिसे हस्तांतरण)	1,31,00,000	
—वाहन/कंप्यूटर अग्रिम की वापसी	16,93,175	
—बचत बैंक खाता पर अर्जित ब्याज	76,653	
—सामूहिक बीमा अभिदान	15,67,366	
—एल० आई० सी० सामूहिक बीमा दावे के लिए प्राप्त राशि	13,35,827	
—केन्द्रीय यंत्रीकरण सुविधाएं (सी० आई० एफ०)	10,000	
—खेल-कूद उपकरणों का किराया	19,125	
—अलुमिनि एंजोसिएशन फंड—ए० एस० सी०	4,16,902	
—जे० एन० यू०—रिज एनवायरनमेंट स्कीम	51,000	
—कुमारी एल० ए० मीरा स्मारक ट्रस्ट (भौतिक विज्ञान संस्थान को पुस्तकें और पत्रिकाओं के लिए)	50,000	
—अर्जित ब्याज—		
—निवेश	12,07,216	
—बचत बैंक खाता	2,61,505	3,14,56,433
8. कार्पस निधि खाता :—		
—अतिरिक्त वसूली के लिए प्रोत्साहन (बि० अ० आ०)	19,33,451	
—मान्यता शुल्क/संबंधन प्रभार/मान्यता प्राप्त संस्थान	5,00,000	
—अन्य स्रोत	1,81,000	
—निवेश पर अर्जित ब्याज/बचत बैंक खाता	3,10,545	29,24,996
9. निवेश सुनाए		1,70,00,000
कुल योग		24,32,34,894

1998-99 का प्राप्ति और अदायगी-लेखा
भाग-5, अध्येतावृत्ति खाता

प्राप्तियां	(आंकड़े रुपये में हैं)	
अवशेष :—		
बैंक रोकड़		88,71,131
1. अनुदान		
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग		
(1) “कोई दिया गया एक समय” योजना तहत जे० आर० एफ०	5,50,00,000	
(2) विभागीय सहायता	58,81,000	6,08,81,000
2. अर्जित ब्याज —		
(बचत बैंक खाता पर)		1,71,118
कुल योग		6,99,23,249

अदायगियां	(आंकड़े रुपये में हैं)		
8. भविष्य निधि अंशदान का उपयोग (विश्वविद्यालय अंश)			
—पोस्ट डाक्टरेल शोध छात्र छात्रावास (फेज-1)	77,231		
—अनावर्ती (अग्रिम)	13,86,000		
—विविध भवन	37,57,487		
—अनावर्ती (अग्रिम)	16,60,000		68,80,718
9. कार्पस निधि खाता—			
(आवर्ती व्यय)			19,167
10. निधियों का निवेश—			
(1) गृह निर्माण निधि	43,00,000		
(2) कार्पस निधि खाता	26,19,502		69,19,502
अंत शेष—			
—हाथ रोकड़	303		
—बैंक रोकड़	1,39,91,856		1,39,92,159
कुल योग			24,32,34,894

1998-99 का प्राप्ति और अदायगी-लेखा

भाग-5; अध्येतावृत्ति खाता

अदायगियां		(आंकड़े रुपयों में हैं)	
1.	“कोई दिया गया एक समय” योजना के तहत जे० आर० एफ०		
1.	अध्येतावृत्ति	2,89,01,330	
2.	आकस्मिक व्यय	30,99,414	
3.	मकान किराया भत्ता	1,94,203	3,21,93,947
2.	विभागीय सहायता		58,81,000
अंत शेष—			
(बैंक रोकड़)			3,18,48,302
कुल योग			6,99,28,249

1998-99 का आय-व्यय लेखा
भाग-1, अनुरक्षण (योजनेतर) लेखा

लेखा शीर्ष

व्यय

(आंकड़े रुपयों में हैं)

1. प्रशासन	3,74,82,697
2. सामान्य सेवाएं और सामान्य प्रभार	6,21,87,027
3. शैक्षिक कार्यक्रम	13,19,89,015
4. परीक्षाएं	18,94,966
5. पुस्तकालय	1,78,17,955
6. छात्र सुविधाएं	66,06,746
7. छात्रवृत्तियां	8,42,282
8. छात्रावास	1,62,58,233
9. प्रकाशन	6,19,508
10. अन्य विभाग	5,05,65,696
11. विविध	2,03,04,990
12. भविष्य निधि और पेंशन	2,12,57,705
13. मूल्यवृद्धि आरक्षित निधि	1,00,000
14. परिसम्पत्तियों तथा देयताओं के विवरण में स्थानांतरित राजस्व खाते पर (आय से अधिक व्यय)	10,98,69,804

योग

47,77,89, 24

1998-99 का आय - व्यय लेखा
भाग-2, विकास (योजनागत) लेखा

लेखा शीर्ष

व्यय

(आंकड़े रुपयों में हैं)

1. शैक्षणिक कार्यक्रम--	
क. संस्थान	4,88,258
ख. अन्य विविध शैक्षणिक कार्यक्रमलाप	57,04,492
ग. अन्य एकल योजनाना	29,90,933
2. छात्रावास	1,78,855
3. जैव प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश परीक्षा	13,93,138
4. डाटा मैट्रकिंग सिस्टम	36,258
5. परिसम्पत्तियों और देयताओं के विवरण में स्थानांतरण राजस्व खाते पर (आय से अधिक व्यय)	7,18,753

योग

1,15,10,687

1998-99 का आय-व्यय लेखा
भाग-1, अनुरक्षण (योजनेतर) लेखा

लेखा शीर्ष	आय
	(आंकड़े रुपये में हैं)
1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग— (राजस्व खाते पर)	44,55,91,228
2. छात्रों से शुल्क	87,99,857
3. छात्रावास	5,17,126
4. भूमि और भवनों से आय	54,41,883
5. प्रकाशन (रायल्टी)	75,278
6. प्रवेश फार्मों की बिक्री और प्रवेश परीक्षा शुल्क	84,34,640
7. अर्जित ब्याज	15,44,867
8. विविध प्राप्तियां/राजस्व	73,94,745
योग	47,77,99,624

1998-99 का आय-व्यय लेखा
भाग-2, विकास (योजनागत) लेखा

लेखा शीर्ष	आय
	(आंकड़े रुपये में हैं)
1. अनुदान— विश्वविद्यालय अनुदान आयोग— (राजस्व खाते में)	67,80,506
2. अन्य संस्थाएँ— (राजस्व खाते में)	26,94,000
3. जैव-प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के लिए प्रवेश फार्मों की बिक्री/प्रवेश परीक्षा शुल्क	17,71,937
4. अर्जित ब्याज— (बचत बैंक खाता)	1,99,171
5. विविध प्राप्तियां (राजस्व खाते में)	65,073
योग	1,15,10,687

31-3-1999 को परिसंपत्ति और दायित्व की स्थिति का विवरण

31-3-1998 की स्थिति	वेधताएं	31-3-1999 की स्थिति
78,88,80,408	अनुदानों का पूंजीकृत मूल्य	84,89,50,511*
2,37,20,623	अग्रिमों के भुगतान हेतु उपयोग किए गए अनुदान	3,11,09,431
	उपयोगाधीन अनुदान—	—
5,99,16,753	(1) राजस्व खाता	17,05,05,310
4,95,36,718	(2) पूंजीगत खाता	5,11,80,046
	उपहार और दान—	—
24,79,377	(1) उपहार और दान	24,79,377
97,11,973	(2) विश्वविद्यालय को दान में प्राप्त पुस्तकों का मूल्य	1,06,02,944
3,09,03,344	वृत्तिदान और पुरस्कार (ग्रंथ संग्रह)	3,33,32,755
5,38,26,195	उद्दिष्ट (विशेष) निधि-खाते के शेष	6,53,17,148
88,71,131	अभ्येतावृत्ति खाते के शेष	3,18,48,302
2,49,90,820	जमा खाते के शेष (भविष्य निधि-खाते एवं मूल्यह्रास आरक्षित निधि-खाते के अलावा)	2,01,95,346
8,11,410	मूल्यह्रास आरक्षित निधि	3,92,390
8,56,628	जमा आरक्षित निधि पर प्राप्त ब्याज	8,56,628
6,60,68,140*	गृह निर्माण निधि	6,08,12,566**
83,069	वाहन अग्रिम निधि	1,32,34,722
40,97,463	कार्पस निधि	70,03,292
	भविष्य निधि खाता—	
16,91,95,352	(1) सामान्य भविष्य निधि	20,18,50,612
4,65,00,353	(2) अंशदायी भविष्य निधि	5,21,06,619
2,37,55,344	(3) ब्याज	3,47,69,816
23,684	प्रतीक्षित प्राप्तियों/बसूलियों का संयोजन	29,359

*इसमें केन्द्रीय विद्यालय भवन बनाने के लिए आई०आई०टी० से 33.33 लाख रुपये, एन०सी०ई०आर०टी० से प्राप्त 28.33 लाख रुपये तथा के०वि०सं० के लिए दो क्वार्टरों के निर्माण हेतु तथा फर्नीचर आदि के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन से प्राप्त 9.66 लाख रुपये की राशि शामिल है।

**गृह-निर्माण निधि पर प्राप्त ब्याज की राशि रु० 2,71,15,139/- इसमें शामिल है।

***गृह-निर्माण निधि पर प्राप्त ब्याज की राशि रु० 2,18,59,565/- इसमें शामिल है।

31-3-1999 की परिसंपत्ति और दायित्व की स्थिति का विवरण

31-3-1998 की स्थिति	परिसंपत्तियाँ	31.3.1999 की स्थिति
	विश्वविद्यालय परिसर का विकास--	
	भूमि--	
2,44,26,996	(1) नये परिसर पर	2,44,26,996
26,676	(2) फीरोजशाह रोड पर	26,676
	भवन--	
	(1) नये परिसर पर	
28,41,38,396	(क) पूरा हो चुका कार्य	28,55,30,440
3,00,16,006	(ख) चल रहा कार्य	4,45,60,019
21,07,201	(2) फीरोजशाह रोड पर	21,07,201
5,89,45,746	बहिरंग संस्थाएं	5,97,29,242
1,04,351	उपस्कर एवं संयंत्र	1,04,351
1,71,76,179	फर्नीचर और साज-सज्जा (पुस्तकालय के अतिरिक्त)	1,82,58,219
21,16,18,354	उपस्कर	23,80,30,926
	भूया प्रयोगशाला की साज-सज्जा (सी० आर०एस०/जापानी प्रयोगशाला की स्थापना)	9,36,177
	पुस्तकालय--	
15,87,97,780	(1) पुस्तकें और पत्रिकाएं	17,40,20,758
24,09,805	(2) फर्नीचर	24,25,756
4,37,667	(3) माइक्रोफिल्म एवं रिप्रोग्राफी उपकरण	4,37,667
71,53,067	टेलीफोन	72,24,257
27,77,359	विश्वविद्यालय के वाहन	34,06,149
	निम्नलिखित खातों में से पूंजी के रूप में दिए गए अग्रिम--	
26,57,643	(1) अनुरक्षण (योजनेतर) खाता	17,83,475
1,87,94,595	(2) विकास (योजनागत) खाता	2,14,00,118
22,68,385	(3) उद्दिष्ट (विशेष) निधि-खाता	42,42,677
—	(4) जमा खाता	36,03,161
	वृत्तिदान का निवेश/ई० एम० एफ०	
5,93,02,520	खाता शेष	6,21,69,557
23,93,87,050	भविष्य निधि निवेश	28,86,31,050
28,00,000	अनुरक्षण खाता में से निवेश	13,00,000
4,11,34,000	योजनागत खाता में से निवेश	4,54,34,000
1,79,735	स्वीटार अग्रिम	5,49,291
5,70,989	मोटर कार/स्कूटर अग्रिम	—
5,00,000	मूल्यह्रास आरक्षित निधि	1,00,000
1,92,45,569	जमा में से निवेश	1,32,45,569
4,07,00,000	गृह निर्माण निधि खाते में से निवेश	3,40,00,000
40,66,549	कार्पस निधि	66,86,051
	अग्रिम--	—
2,23,01,611	1) गृह-निर्माण अग्रिम	2,48,72,153
22,038	2) वाहन अग्रिम	96,91,852

31-3-1997 की स्थिति	परिसंपत्तियां	31-3-1999 की स्थिति
— अंत शेष—		—
64,026	अग्रदाय लेखे	74,525
— हाथ रोकड़/बैंक में—		—
— अनुरक्षण (योजनेतर) खाता		—
10,34,736	(1) विश्वविद्यालय प्राप्तियां	1,86,75,118
5,01,80,881	(2) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान	14,41,07,811
1,35,22,232	विकास (योजनागत) लेखा	1,16,83,413
2,54,20,721	उद्दिष्ट (विशेष) निधि खाता	3,64,74,058
1,01,32,605	जमा लेखा (भविष्य निधि लेखे, छात्र लेखे, गृह निर्माण अग्रिम निधि बाह्य अग्रिम निधि लेखे तथा कार्पस निधि लेखे सहित)	1,39,92,159
88,71,131	अभ्येतावृत्ति लेखा	3,18,48,302
1,36,42,28,776	—योग	1,63,66,77,174

जी० सी० डोंडियाल
सहायक वित्त अधिकारी (जी)
जवाहरलाल नेहरू
विश्वविद्यालय

एम० पद्मानाभन
उप वित्त अधिकारी
जवाहरलाल नेहरू
विश्वविद्यालय

पी० भाटिया
वित्त अधिकारी
जवाहरलाल नेहरू
विश्वविद्यालय

लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र

मैंने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के 31 मार्च, 1999 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्राप्त एवं भुगतान लेखे/आय एवं व्यय लेखे तथा 31 मार्च, 1999 को परिसम्पत्तियों तथा देयताओं के विवरण की जांच कर ली है। मैंने सभी अपेक्षित सूचना एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं एवं संलग्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दी गई अभ्युक्तियों के अधीन रहते हुए अपनी लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरी राय में, मेरी सर्वोत्तम जानकारी, मुझे दिए गए स्पष्टीकरण तथा संगठन की बहियों में दर्शाए गए उल्लेखों के अनुसार ये लेखे और परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के विवरण उपयुक्त रूप से तैयार किए गए हैं तथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कार्य-कलापों का सही एवं उचित रूप प्रस्तुत करते हैं।

स्थान : नई दिल्ली

ह०/-अपठनीय

दिनांक :

महानिदेशक लेखापरीक्षा
केन्द्रीय राजस्व

JAWAHARLAL NEHRU UNIVERSITY

The Annual Accounts of the Jawaharlal Nehru University for the year 1998-99 and the Audit Certificate thereon are hereby published as required under Sub-section (2) of the Section 20 of the Jawaharlal Nehru University Act, 1966 (53 of 1966).

S. NANDKEOLYAR
Finance Officer

JAWAHARLAL NEHRU UNIVERSITY
ANNUAL ACCOUNTS
1998-99

Statement Showing the Grants received and Expenditure incurred during 1998-99 (Part-wise)

	Part-I Maintenance (Non-Plan) Account		Part-II Development (plan) Account	Part-III Earmarked (Special) Fund Account	Part-IV Debt., Deposit etc. Account	Part-V Fellowship Account	Total
	Grants from U.G.C.	University Receipts					
Opening Balance as on 1-4-1998	5,01,78,200	10,94,342	1,35,26,332	2,54,23,721	1,01,32,605	88,71,131	10,92,26,331
Receipts during 1998-99	46,12,86,000	3,46,93,985	6,00,82,411	7,54,34,557	23,31,02,289	6,10,52,118	92,56,51,360
Total	51,14,64,200	3,57,88,327	7,36,08,743	10,08,58,278	24,32,34,894	6,99,23,249	1,03,48,77,691
Payments during 1998-99	36,73,65,350	1,70,37,723	6,20,20,330	6,43,81,220	22,92,42,735	3,80,74,947	77,81,22,305
Closing Balance as on 31-3-1999	14,40,98,850*	1,87,50,604	1,15,88,413	3,64,77,058	1,39,92,159	3,18,48,302	25,67,55,386

*Represents grant received on 31st March, 1999 towards the implementation of Fifth Central Pay Commission recommendations.

EXPLANATORY NOTES

The Receipts and Payments Account (Pages 2525—2554) is divided in five parts I to V. They cover the following transactions :—

I.	Maintenance (Non-Plan) Account :	Dealing with the Receipts and Payments expenditure connected with the Non-Plan Accounts of the University and connected receipts.
II.	Development (Plan) Account :	Dealing with the expenditure on development of University out of the 9th Five Year Plan provision and the connected receipt.
III.	Earmarked (Special) Fund A/c :	Dealing with grants for specific purposes from the Govt. of India, University Grants Commission, State Govts., Chairs, Endowments, Trust Funds etc. and the expenditure met therefrom.
IV.	Debt, Deposits etc. Account :	Dealing with the receipts and outgoings under Debt., Deposits heads.
V.	Fellowship Account :	Dealing with the receipts and payments in connection with Research Fellowships under 'At any one given time basis'.

RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 1998-99

PART-I—MAINTENANCE (NON-PLAN) ACCOUNT

RECEIPTS	(Figures in rupees)	
Revenue Account —		
Opening Balance		
Imprest	56,925	
Cash in Hand	2,681	
Cash in Bank		
(i) Grant from UGC	5,10,78,200	
(ii) (University Receipt)	10,34,736	5,12,72,542
I. Grants—		
University Grants Commission (Maintenance Block Grant)—		46,12,86,000
II. Fees from Students—		
(i) Academic	86,81,735	
(ii) Examinations	51,385	
(iii) Others	66,737	87,99,857
III. Hostel Fees		5,17,126
IV. Income from Land, Buildings and other Property —		
(i) Rent from Staff Quarters	19,69,649	
(ii) Rent from Guest House	6,42,282	
(iii) Rent from shops	10,14,302	
(iv) Rent from accommodation leased to State Bank of India, ICHR & Post Office etc.	6,81,017	
(v) Gomti Guest House	9,34,633	54,41,833
V. Publications (Royalties)		75,278
VI. Miscellaneous—		
(i) Sale of tender forms and Newspapers etc.	23,265	
(ii) CGHS recoveries	4,05,801	
(iii) Receipts from Defence Institutions	1,33,245	
(iv) Other receipts	68,32,434	73,94,745
VII. Sale of Admission Forms and Entrance Examination Fees		84,34,640

RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 1998-99
PART-I—MAINTENANCE (NON-PLAN) ACCOUNT

PAYMENTS	(Figures in rupees)
1. ADMINISTRATION—	
(i) Vice-Chancellor's Office	17,62,477
(ii) Rector's Office	6,61,271
(iii) Registrar's Office	1,73,18,988
(iv) Finance & Accounts Deptt. (Including Internal Audit)	1,17,06,029
(v) Dean's Administration	60,33,932
	3,74,82,697
2. COMMON SERVICES AND GENERAL CHARGES—	
1. Travelling Allowance—	
(i) Members of EC/AC/FC/Court	1,69,867
(ii) Members of Selection Committee/Board of Studies etc.	4,31,842
(iii) Members of University Staff	84,812
(iv) Travel grant paid on first appointment and candidates called for interview	1,07,837
	<u>7,94,358</u>
2. Postage and Telegrams	12,73,169
3. Purchase of stationery	7,24,394
4. Telephones—	24,00,458
Non-recurring	71,190
Non-recurring (Advance)	3,90,178
5. (a) Repairing, Oiling, Cleaning of typewriters, Duplicators and Xerox Machine etc.	1,73,258
(b) Repair of Room/Water coolers, Heaters/Fans/ ACs.	90,452
6. Repair/Polishing of furniture	2,51,311
7. Electricity charges	4,41,38,119
8. Water charges	64,89,471
9. Maintenance of Staff Car	8,65,445
10. Liveries and Uniforms	15,53,144
11. Printing of forms & registers	3,09,482
12. Entertainment	1,50,342
13. Advertisement	4,78,688
14. Rent of NAA Campus	9,02,351
15. Legal Expenses	81,400
16. Rates and Taxes	582
17. Maintenance of Admn. Computer	10,611
18. Conservancy charges	4,02,905
19. Other contingencies	10,97,087
	6,26,48,395
3. ACADEMIC PROGRAMMES —	
A. SCHOOLS—	
I. School of Social Sciences—	
(i) Salaries	3,26,51,463
(ii) Other charges	5,55,246
(iii) Non-recurring	84,241
II. School of International Studies—	
(i) Salaries	2,24,16,925
(ii) Other charges	12,73,821

RECEIPTS

(Figures in Rupees)

PAYMENTS

(Figures in rupees)

III. School of Languages	
Literature & Culture Studies	
(i) Salaries	2,74,71,082
(ii) Other charges	2,95,562
(iii) Non-recurring	13,808
(iv) Non-recurring (Advance)	61,971
IV. School of Life Sciences—	
(i) Salaries	99,41,436
(ii) Other charges	19,73,713
(iii) Non-recurring	3,36,136
V. School of Environmental Science	
(i) Salaries	87,33,033
(ii) Other charges	5,81,816
(iii) Non-recurring	45,557
(iv) Non-recurring (Advance)	1,40,800
VI. School of Computer & Systems Sciences—	
(i) Salaries	54,49,142
(ii) Other charges	4,45,433
(iii) Non-recurring	95,965
(iv) Non-recurring (Advance)	1,03,744
VII. School of Physical Sciences —	
(i) Salaries	44,91,872
(ii) Other charges	3,82,218
(iii) Non-recurring	75,510
	11,76,20,524
3. ACADEMIC PROGRAMMES—contd.	
B. CENTRALISED FACILITIES—	
I. Setting up of University Services & Instrumentation Centre (USIC)—	17,71,5000
(i) Salaries	
(ii) Other charges	64,317
II. Animal House—	
(i) Salaries	9,33,380
(ii) Other charges	4,29,303
III. Botanical Garden	
(i) Salaries	2,94,495
(ii) Other charges	10,427
IV. Communication & Information Centre—	
(i) Salaries	7,21,118
(ii) Other charges	4,90,021
(iii) Non-recurring	5,000
V. Maintenance of Centre Facilities—Equipment	—
	47,19,561

RECEIPTS

(Figures in rupees)

PAYMENTS

(Figures in rupees)

C OTHER INDIVIDUAL SCHEMES—

I. Development of Multidisciplinary teaching and training in Bio-technology—

(i) Salaries	27,66,887
(ii) Other-charges	81,580
(iii) Non-recurring	1,24,909
(iv) Non-recurring (Advance)	17,697

II. Adult Continuing Education and Extension Unit (Salaries)

8,92,435

III. Special Assistance Programme—

(a) School of Social Sciences

(i) Centre for the study of Social Systems (Salaries)

8,47,244

(ii) Centre for the study of Regional Development (Salaries)

10,17,810

(iii) School of Life Sciences (Salaries)

7,43,280

64,91,842

D. MISCELLANEOUS OTHER ACADEMIC ACTIVITIES

42,62,456

13,30,94,383

4. EXAMINATIONS

18,94,966

5. LIBRARY —

(i) Salaries	1,75,09,784	
(ii) Books & Journals	1,22,20,480	
(iii) Periodicals & Newspapers	24,497	
(iv) Other charges	2,83,674	
(v) Non-recurring	15,951	
(vi) Non-recurring (Advance)	1,09,883	3,01,64,269

6. STUDENTS' FACILITIES —

(i) Dean of Students—

(a) Salaries

18,37,331

(b) Other charges

19,923

(ii) Physical training, Sports Activities and Games—

(a) Salaries

8,32,909

(b) Other charges

3,98,540

(iii) Students' Health Centre—

(a) Salaries

22,74,281

(b) Other charges

7,23,306

(iv) Students' Union Office

(a) Salaries

88,182

(v) Other facilities—Students' Buses

(a) Salaries

3,51,783

(b) Other charges

83,491

66,09,746

7. SCHOLARSHIPS

8,42,282

8. STUDENTS' HOSTELS —

a Salaries

1,50,80,844

b Other charges

11,77,389

c. Non-recurring—

a. Equipment

1,46,063

b. Furniture

51,710

d. Non-recurring (Advance)

a. Equipment

1,70,847

b. Furniture

26,000

1,66,52,853

9. PUBLICATIONS—

(a) Salaries

4,35,778

(b) Other Charges

1,83,730

6,19,508

RECEIPTS

(Figures in rupees)

PAYMENTS

(Figures in rupees)

10. OTHER DEPARTMENTS—

A. Engg. Department—

(i) Salaries	1,57,03,896
(ii) Estates Maintenance—	
(a) Recurring	3,16,580
(b) Non-recurring (Advance)	10,200
(iii) Minor Works Recurring	3,57,223
(iv) Maintenance & Running of Water Pump	68,811
(v) Maintenance of Vehicles	43,839
(vi) Other charges	26,636
(vii) Maintenance of Horticulture —	
(a) Recurring	6,53,886
(b) Minor works (Recurring)	2,88,272
(viii) Major repair of Buildings	
(a) Recurring	23,36,292
(b) Non-recurring	78,695

2,34,77,330

B. Sanitation Staff (Salaries)

1,10,52,798

C. Security Staff (Salaries)

1,19,80,454

D. Estate Office (Salaries)

32,04,244

E. Gomti Guest House

(a) Salaries

5,89,607

(b) Other charges

45,224

F. Aravali Guest House Faculty Club

(a) Recurring

3,04,934

(b) Non-recurring (Advance)

18,500

5,06,73,091

11. MISCELLANEOUS—

A. Membership and Contribution paid to various Educational Bodies/Institutions

1,26,328

B. Insurance Premium Laboratories

—

C. Furniture for Administrative Offices and Faculties Advances

5,79,743

12,040

D. Furniture for Laboratories

—

E. Equipment for Administrative Offices and Faculties Advances

5,12,998

69,450

F. Desert/Water Coolers and Air-conditioners

1,05,476

G. Other Items—

(i) Leave Travel Concession

28,27,648

(ii) Medical Attendance to staff (CGHS Contributions)

48,29,516

(iii) Over time Allowances

26,54,698

(iv) Reimbursement of tuition fees/Grants for children Education Allowance

61,104

(v) Convocation Expenses and Academic Robes

80,450

(vi) Expenses in connection with Defence Organisation

6,206

(vii) VC's Discretionary Fund

1,00,000

(viii) Festival Advance

7,75,800

(ix) Dailywages Workers' Salaries

62,85,058

(x) Honorarium paid to staff

2,30,700

(xi) Special lectures and training to staff

15,488

(xii) Bonus

24,01,310

(xiii) Honorarium to Enquiry Officer (Sh. A. K. Mathur)

6,984

(xiv) Grants to Faculty Club

5,000

(xv) Rent for Hiring accommodation for students

6,65,000

2,23,60,497

RECEIPTS

(Figures in Rupees)

Continued from page 2526

VIII. INTEREST EARNED ON—		
(i) Investment	10,23,068	
(ii) Saving Bank Account	5,21,799	15,44,867
IX. RECOVERIES/REFUNDS—		54,72,52,527
(i) Festival Advance		4,06,244
(ii) Amount transferred from Conveyance Advance Fund Account		67,46,800
X. INVESTMENT ENCASHED		5,70,0989
XI. RECOVERIES/RECEIPTS/AWAITING REMITTANCE		
Undisbursed amount for payment		8,356
GRAND TOTAL		54,72,52,527

RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 1998-99
PART-II—DEVELOPMENT (PLAN) ACCOUNT

RECEIPTS

(Figures in rupees)

Opening Balance—		
Imprest	4,100	
Cash in Bank	1,35,22,232	1,35,26,332
1. GRANTS—		
A. University Grant Commission		
(i) Recurring Grants	67,80,506	
(ii) Non-recurring grant for —		
(a) Development of University Campus	1,70,00,000	
(b) Other Capital Grant	13,50,000	2,51,30,506
B. Interest earned on investment of grants		26,81,574
C. Other Organisations—		
(i) Ministry of Science and Technology— (Deptt. of Bio-technology)	50,94,000	
(ii) Ministry of Social Justice and Empowerment— (Central assistance for Boys and Girls Hostel for SCs.)	1,23,80,150	1,74,74,150
2. MISCELLANEOUS RECEIPTS/RECOVERIES/ REFUNDS/ADJUSTMENTS RELATING TO—		
Recurring—		
Area Studies Programme (Soviet Studies)		65,073
3. Interest earned on (Saving Bank Account)		1,99,171
4. Combined Entrance Exams for Bio-technology courses—		
(i) Sale of Admission forms/Examination fees		18,31,937
5. INVESTMENT ENCASHED		1,27,00,000

PAYMENTS		(Figures in Rupees)
12. PROVIDENT FUND AND PENSION—		
(i) Provident Fund Contributions	10,04,994	
(ii) Deposit Linked Insurance	1,17,561	
(iii) Pension	1,40,54,998	
(iv) Gratuity	29,54,260	
(v) Commuted value of Pension	12,05,124	
(vi) Leave encashment	19,20,768	2,12,57,705
13. DEPRECIATION RESERVE FUND		1,00,000
TOTAL		38,44,00,312
REMITTANCES—		
Remittance of recoveries/Receipts of previous year—		
Undisbursed amount for payment		2,681
CLOSING BALANCE—		
(i) Imprest	66,525	
(ii) Cash in Hand	8,961	
(iii) Cash in Bank—		
(a) Grants from UGC	14,40,98,850*	
(b) University Receipts	1,86,75,118	16,28,49,454
GRAND TOTAL		54,72,52,527

*Represents grants received on 31st March, 1999 towards the implementation of Vth Central Pay Commission recommendations

RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 1998-99
PART-II—DEVELOPMENT (PLAN) ACCOUNT

PAYMENTS		(Figures in rupees)
RECURRING—		
1. ACADEMIC PROGRAMMES—		
A. SCHOOLS		
(i) School of International Studies—		
a. Gulf Studies		
(Other charges)	97,975	
b. Soviet Studies—		
(i) Salaries	94,750	
(ii) Other charges	2,83,593	
c. Documentation Information Centre—		
(Human Rights—Teaching and Research)	11,940	4,88,258
B. MISCELLANEOUS OTHER ACADEMIC ACTIVITIES—		
1. Academic Staff College—		
(i) Salaries	11,12,547	
(ii) Other charges	32,38,147	43,50,694
II. Department of Special Assistance Programme (DSA) SSS—		
A. Centre for Study of Social Systems—		
Other charges	1,45,034	
B. Centre for Historical Studies—		
Other charges	82,343	

RECEIPTS

(Figures in rupees)

PAYMENTS	(Figures in rupees)	
C. Zakir Hussain Centre for Educational Studies—		
a. Salaries	1,16,267	
b. Other charges	1,70,379	
D. Centre for Economic Studies and Planning—		
Other charges	48,083	
E. Centre for the Study of Regional Development—		
Other charges	1,16,635	
F. School of Life Sciences	4,01,634	10,80,375
III. UGC Assistance at the level of DRs under SAP—		
(i) Centre for Political Studies (SSS)—		
Other charges	72,217	
(ii) School of Physical Sciences—		
a. Other charges	40,006	
b. Non-recurring	11,305	
(iii) School of Environmental Sciences—		
a. Other charges	1,61,200	
b. Non-recurring	12,000	2,96,728
C. OTHER INDIVIDUAL SCHEME—		
1. Development of Multi-disciplinary teaching and training in Bio-technology—		
a. Other charges	11,42,756	
b. Non-recurring	26,750	
c. Non-recurring (Advance)	55,413	
d. Students/Research Associateship	2,20,932	14,45,851
II. BIC—Bio-informatics—		
a. Salaries	7,02,357	
b. Other charges	8,71,388	
c. Non-recurring	2,42,950	18,16,695
III. Adult Continuing Education and Extension Unit (Other charges)		500
IV. INFLIBNET PROGRAMME (Library)—		
Salaries		36,000
V. Gender Sensilisation Programme		17,000
2. STUDENTS' HOSTELS		1,78,855
3. Combined Entrance Exam. for Bio-technology Courses		
a. Other charges	13,93,138	
b. Non-recurring	60,000	14,53,138
DATA NET WORKING SYSTEMS		36,258
TOTAL—REVENUE ACCOUNT		1,12,00,352
B. CAPITAL ACCOUNT—		
A. CONSTRUCTION OF UNIVERSITY CAMPUS—		
I. SCHOOL BUILDINGS—		
(i) Construction of School of Life Sciences Building	2,55,574	
(ii) Construction of Additional floor of School of Social Sciences Building	2,55,574	
(iii) Const. of School of Environmental Sciences Building	2,09,484	
(iv) Const. of School of Physical Sciences Building (DRs/SAP)	80,000	8,00,632

RECEIPTS

(Figures in rupees)

PAYMENTS

(Figures in rupees)

II. LIBRARY BUILDING		3,000
III. RESIDENTIAL BUILDING—		
(i) Construction of 200 Students' Hostels	1,84,534	
(ii) Construction of Hostel for 100 students	18,05,057	
(iii) Construction of Working Women's Hostel	10,22,540	
(iv) Construction of 25 Unit for Senior Faculty members transit House	35,62,057	
(Advance to CPWD)	65,30,234	
v) Construction of Type I (14) quarters in Paschimabad	2,35,000	
(vi) Const. of Guest House and Faculty Club	64,695	
(vii) Const. of Post Doctoral Research Scholar Hostel (Phase-II)		
Advance to CPWD	11,75,000	1,45,79,117
IV. MISCELLANEOUS BUILDINGS—		
(i) Construction of Auditorium, Conference Complex & Lecture Halls	10,18,221	
Advance to CPWD	14,47,627	
(ii) Const. of Estate Office, Vehicle Shed & Workshop	1,41,893	
(iii) Construction of Sports Complex	8,908	
(iv) Const. of Bio-containment facility (for keeping Experimental infected Animals)	1,65,000	
(v) Special repair work under Campus Development	88,900	28,70,549
TOTAL—CONSTRUCTION OF UNIVERSITY CAMPUS		1,82,55,298
B. OTHER CAPITAL EXPENDITURE		
I. EQUIPMENTS—		
(i) School of Life Sciences	18,60,829	
Advance	3,96,900	
(ii) School of Environmental Sciences	14,012	
Advance	2,82,836	
(iii) School of Physical Sciences	3,91,989	
Advance	2,36,571	
(iv) School of Social Sciences	7,77,760	
(v) School of Languages (LLC)	8,74,250	
(vi) University Services and Instrumentation Centre (USIC)	2,950	
Advance	47,700	
(vii) Soviet Studies	24,254	
(viii) Centre for Bio-technology	2,92,200	52,02,251
C. Academic Staff Collego		16,594
D. DATA Net Working Systems		42,25,235
E. Inter Halls Administration		71,401
F. Hostel (Tapti)	1,89,988	
Advance	19,000	2,08,988
G. Establishment of Yoga Centre		40,000
H. Deptt. of Special Assistance Programme (DSA)-		
(i) Centre for the Study of Social Systems	56,646	
(ii) Centre for the Study of Regional Development	29,815	
(iii) Centre for Historical Studies	17,360	
(iv) School of Life Sciences	2,47,059	
(v) Development of Animal House (SLS-II)	59,700	4,10,580

RECEIPTS

(Figures in rupees)

PAYMENTS		(Figures in rupees)
I. UGC ASSISTANCE AT THE LEVEL OF DRs/SAP—		
(i) Centre for Political Studies (SSS)	55,200	
(ii) School of Physical Sciences	1,15,623	
Advance	7,728	
(iii) School of Environmental Sciences	1,72,015	
Advance	4,88,756	8,39,322
J. BIO-TECHNOLOGY PROGRAMME		
Equipment	3,79,694	
Advance	8,938	3,88,632
K. BIO-INFORMATIC CENTRE (BIC) (Advance)		
		3,90,000
TOTAL—I—EQUIPMENTS		1,17,93,003
2. BOOKS AND JOURNALS—		
(i) Central Library	19,83,935	
(ii) Academic Staff College	78,760	
(iii) Bio-technology Programme	1,47,250	
(iv) Gulf Studies	82,882	
(v) Soviet Studies	1,36,101	
(vi) DSA Programme—		
a. Centre for Economic Studies & Planning	4,361	
b. Centre for Study of Social System	1,41,054	
c. Centre for Historical Studies	1,64,632	
d. Zakir Hussain Centre of Educational Studies	36,885	
e. Centre for the Study of Regional Development	24,021	
(vii) DRs/SAP—		
a. School of Physical Sciences	18,239	
b. Centre for Political Studies (SSS)	90,660	
(viii) Documentation Information Centre (Human Rights Teaching and Research)	7,349	
(ix) Bio-informatic Centre (BIC)	10,513	29,26,642
3. FURNITURE—		
(i) Hostel (Tapti)	76,664	
(ii) DRs/SAP/Centre for Political Studies (SSS) (Advance)	23,746	
(iii) Documentation Information Centre (Human Rights— Teaching & Research)	29,127	1,29,537
4. PURCHASE OF VEHICLES		
		7,15,498
TOTAL—B. OTHER CAPITAL EXPENDITURE		1,55,64,680
TOTAL—SECTION (A+B)—		4,50,20,330
INVESTMENTS OF FUNDS		1,70,00,000
CLOSING BALANCE—		
(i) Imprest	5,000	
(ii) Cash in Bank	1,15,83,413	1,15,88,413
GRAND TOTAL		7,36,08,743

RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 1998-99
— PART-III—EARMARKED (SPECIAL) FUND ACCOUNT

RECEIPTS	(Figures in Rupees)
Opening Balance—	
Earmarked Fund Account—	
Bank	2,36,93,139
Genetic Engg. Unit Account—	
Imprest	3,000
Bank	11,04,787
Exim Bank Library	3,14,978
Special Democracy Account	3,07,817
SBI—R & D Fund Account	—
	2,51,23,721
I. SPECIFIC PURPOSES—	
A. University Grants Commission	7,94,176
B. Government of India	
(i) Genetic Engg. Unit	15,81,600
(ii) Indian Council of Cultural Relations	1,38,902
(iii) Other Projects	3,11,28,537
C. Foreign Bodies/Govts.	
(i) Imperial College of Silwood Park	4,05,030
(ii) Ford Foundation	25,845
(iii) Nauziland High Commission	2,18,600
(iv) European Economic Commission	4,94,813
(v) World Health Organisation	2,56,310
(vi) Potts Memorial Fund Foundation	3,38,000
(vii) U.N.E.S.C.O.	3,34,028
(viii) International Development of Research Centre	3,500
(ix) Kaurian Foundation	5,32,712
(x) Mastech, USA	1,05,727
(xi) Italian Embassy	84,360
(xii) United States Deptt. of Agriculture	5,00,000
(xiii) United Nation High Commission for Refugees	42,500
(xiv) Japan Foundation	5,94,939
(xv) Shastri Indo-Canadian Institute	2,72,500
(xvi) United Nation Population Fund	3,15,000
D. OTHER BODIES—	
(i) Council of Scientific & Industrial Research	50,74,791
(ii) Indian Council of Social Sciences Research	4,40,926
(iii) Indian Council of Medical Research	1,4,020
(iv) Indian Council of Historical Research	30,000
(v) Indian National Science Academy	1,45,050
(vi) All India Council of Technical Education	10,000
(vii) Nuclear Science Centre	1,32,500
(viii) Administrative Over Head Charges	20,12,148
(ix) M/s. Hindustan Lever Ltd.	6,22,000
(x) National Service Scheme	600
(xi) National Council for Promotion of Urdu Language	30,000
(xii) CBT—Administrative Over Head charges	1,44,000
(xiii) Madras School of Economic	2,50,000
(xiv) Sahitya Academy	2,00,000

PAYMENTS		(Figures in Rupees)	
I. SPECIFIC PURPOSES—			
A. University Grants Commission			
(a) Recurring	12,64,358		
(b) Non-recurring	55,300		13,19,658
B. Government of India—			
(i) Genetic Engg. Unit			
(a) Recurring	12,45,554		
(b) Non-recurring	5,08,664		17,54,218
(ii) Indian Council of Cultural Relations			
			92,805
(iii) Other Projects—			
(a) Recurring	1,82,31,632		
(b) Non-recurring	52,89,029		
(c) Non-recurring (Advance)	31,58,602		
(d) Const. of CPWD Building	30,290		2,67,09,553
C. Foreign Bodies/Govts.—			
Kaurian Foundation			60,000
Ford Foundations—			
(a) Recurring	7,30,187		
(b) Non-recurring (Books)	2,23,512		9,53,699
Japan Foundation			3,88,000
U.N.E.S.C.O. —			
(a) Recurring	5,85,380		
(b) Non-recurring	1,03,859		6,89,239
National Service Scheme			1,17,024
United Nations High Commission for Refugees			33,800
European Economic Commission			1,38,358
Imperial College at Silwood Park—			
(a) Recurring	1,29,989		
(b) Non-recurring	49,000		1,78,989
Shastri Indo Canadian Institute			50,380
United State Deptt. of Agriculture			3,70,701
University of North Caroline, USA—			
(a) Recurring	1,00,032		
(b) Non-recurring	75,500		1,75,532
World Health Organisation			3,76,521
Open Society Institute, USA			38,368
Potts Memorial Foundation			4,47,952
Italian Embassy			58,734
Newziland High Commission			
(a) Recurring	3,949		
(b) Non-recurring	1,03,683		1,07,632
United Nation Population Fund			1,34,281
D. Other Bodies—			
(i) Council of Scientific & Industrial Research—			
(a) Recurring	33,45,281		
(b) Non-recurring	1,86,563		
(c) Non-recurring (Advance)	2,07,367		37,39,211
(ii) Indian Council of Social Sciences Research			5,23,332
(iii) Indian Council of Historical Research			52,069
(iv) Indian Council of Medical Research			2,57,845

RECEIPTS	Amount in Rupees
II. FELLOWSHIPS AND SCHOLARSHIPS—	
A. University Grants Commission	4,75,512
B. Government of India	72,82,782
C. State Government	6,36,014
D. Other Bodies—	
(i) Council of Scientific & Industrial Research	34,63,321
(ii) Indian Council of Social Sciences Research	13,07,259
(iii) Indian Council of Historical Research	1,23,300
(iv) Indian Council of Medical Research	45,521
(v) Indian Council of Agriculture Research	20,861
(vi) Indian National Science Academy	15,000
(vii) N.C.E.R.T.	26,000
(viii) Indian Council of Philosophical Research	22,300
III. PRIZES AND ENDOWMENTS—	
(i) Interest earned	22,16,221
(ii) Endowments	15,06,672
IV. OTHER RECEIPTS—	
A. Cultural Exchange Programme—	
Salary paid to teachers appointed under various Cultural Exchange Programme	5,27,307
B. UGC—Research Scientists	33,64,135
Interest earned on Investments—	
(i) Out of Earmarked Fund Account	24,72,958
(ii) Out of Administrative Over Head Charges	6,43,302
Interest earned on Saving Bank Account (EMF Account)	4,96,018
V. EXIM BANK LIBRARY/SOCIAL DEMOCRACY FUND—	
Interest earned on Saving Bank Account	25,961
VI. SBI—R & D FUND ACCOUNT	5,66,000
VII. INVESTMENT ENCASHED	28,21,000

GRANT TOTAL

1,98,58,279

PAYMENTS	(Figures in Rupees)
D. Other Bodies—Contd.	
(v) Centre for Development Studies	49,878
(vi) All India Council of Tech. Education	1,66,621
(vii) Payment out of over head charges	1,44,582
(viii) M/s. Hindustan Lever Ltd.	11,14,428
(ix) Indian National Science Academy	1,31,442
(x) Nuclear Science Centre	89,199
(xi) National Service Scheme	17,771
(xii) Indian Council of Promotion of Urdu Languages	28,500
(xiii) Sahitya Academy	2,00,000
I. FELLOWSHIPS AND SCHOLARSHIPS—	
A. University Grants Commission	6,28,117
B. Government of India	65,24,743
C. State Governments	6,25,101
D. Other Bodies—	
(i) Council of Scientific and Industrial Research	32,24,531
(ii) Indian Council of Social Sciences Research	12,41,590
(iii) Indian Council of Historical Research	1,35,950
(iv) Indian Council of Medical Research	74,381
(v) Indian Council of Philosophical Research	43,003
(vi) Indian Council of Agricultural Research	18,000
(vii) N.C.E.R.T.	12,500
(viii) Indian National Science Academy	15,000
II. PRIZES AND ENDOWMENTS—	
(i) Javaharlal Nehru Professorship (Chair on Environmental Law)	2,16,410
(ii) MJK Thavraj Memorial Trust	15,877
(iii) Juhi Prasad Award	2,000
(iv) Dr. Urmila Phadnis Memorial Fund	1,500
(v) Dr. Refal Fernandez Award of Scholarship (CPS)	18,000
(vi) Dr. Ambedkar Chair	6,34,183
(vii) R.B.I. Chair	3,02,250
(viii) Rajiv Gandhi Foundation	77,377
(ix) Tendulkar Trust	1,200
(x) Corpus Fund (CBT)	24,685
III. INVESTMENTS—	
(i) Endowment for SC/ST Candidates	1,38,037
(ii) Ford Foundation	30,50,000
V. OTHER PAYMENTS—	
A. Cultural Exchange Programme—	
Salary paid to teachers appointed under various Cultural Exchange Programme	8,59,295
B. UGC—Research Scientists	28,24,175
INVESTMENTS—	
Out of Earmarked Fund Account	25,00,000
EXIM BANK LIBRARY ACCOUNT—	
Non-recurring (Books)	1,10,929
BI—R & D FUND ACCOUNT—	
a. Recurring	1,92,665
b. Non-recurring (Equipment)	1,59,490 3,52,065

RECEIPT	(Figures in Rupees)	
	Rs. P.	Rs. P.

GRAND TOTAL

10,08,58,279

RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT
PART-IV—DEBT,
 (Figures in Rupees)

RECEIPTS,	Rs. P.	Rs. P.
Opening Balance—		
Provident Fund	63,999	
Other Deposits	70,02,078	
House Building Fund	30,66,528	1,01,32,605
I. DEBT.		
II. DEPOSITS—		
Provident Fund—		
Employees' Subscriptions	4,58,22,504	
University Contribution	10,81,820	
Interest adjusted to Subscribers' account during the year	2,98,33,512	
Investment encashed	6,17,56,000	
Interest earned on investments	4,08,47,983	17,93,41,819
III. STUDENTS' FUND—		
Students' Aid Fund	1,23,052	
Extra Curricular Activities Fees	2,18,988	
Students' Security Deposits	6,472	
Hostel Security Deposits	5,566	
Other Deposits (Library Deposits, Miscellaneous Deposits etc.)	9,500	4,26,578
IV. OTHER FUNDS—		
VCIs Discretionary Fund		1,08,600
V. OTHER DEPOSITS—		
Earnest Money Security Deposits		10,18,832
VI. RESERVE FUND—		
Depreciation Reserve Fund	2,66,100	
Interest earned on Depreciation Reserve Fund	58,931	
Investment encashed	5,00,000	8,25,031
VII. OTHER RECEIPTS—		
Refund of House Building Advance	38,23,238	
Interest earned on House Building Fund	78,44,426	

(Figures in rupees)

PAYMENTS	Rs. P.	Rs. P.
CLOSING BALANCE—		
Earmarked Fund Account	3,47,90,127	
Genetic Engg. Unit Account—		
Imprest	3,000	
Bank	9,32,169	
Exim Bank Library Account—		
Bank	2,16,003	
Social Democracy Fund Account	3,21,824	
SBI—R & D Fund Account	2,13,935	3,64,77,058
GRAND TOTAL		10,08,58,279

FOR THE YEAR 1998-99

DEPOSITS, ETC. ACCOUNT

(Figure in rupees)

PAYMENTS	Rs. P.	Rs. P.
I. DEBT		
II. DEPOSITS—		
Provident Fund—		
Advances/Withdrawals/ Final Payments	3,72,29,059	
Final payment of University Contributions	12,47,250	
Interest paid to the credit of the Subscribers' Account	2,98,33,512	
Investments	11,10,00,000	17,93,09,821
III. STUDENTS' FUND—		
Students' Aid Fund	72,231	
Extra Curricular Activities fees	1,62,003	
Students' Security Deposits	440	
Hostel Security Deposits	500	
Other Deposits (Library Deposits, Miscellaneous Deposits etc.)	500	2,36,074
IV. OTHER FUNDS—		
VC's Discretionary Fund		77,000
V. OTHER DEPOSITS—		
Earnest Money, Security Deposits		8,20,738
VI. RESERVE FUND—		
Depreciation Reserve Fund—	1,00,000	
Investment		
Purchase of equipment	53,598	
Purchase of vehicle	53,292	
Non-recurring (Advance)	6,37,161	8,44,051
VII. OTHER PAYMENTS—		
House Building Fund Advance	63,93,780	

(Figures in rupees)

RECEIPTS	Rs.	P.	Rs.	P.
Conveyance/Computer Advance Fund— (Transferred from House Building Fund)	1,31,00,000			
Refund of Conveyance/Computer Advance	16,93,175			
Interest earned on Saving Bank Account	75,653			
Group Insurance Subscription	15,67,366			
Amount received in respect of LIC Group Insurance Claim	13,35,827			
Central Instruments Facilities (CIF)	10,000			
Hiring of Sports Facilities	19,125			
Alumni Association Fund— ASC	4,16,902			
JNU— Ridge environment Regeneration Scheme	51,000			
Kumari L.A. Meera Memorial Trust— (For Books & Journals to the School of Physical Sciences)	50,000			
Interest earned on—				
Investment	12,07,716			
Saving Bank Account	2,61,505		3,14,56,433	
VIII. CORPUS FUND ACCOUNT—				
Towards Incentive for creating additional recoveries (UGC)	19,33,451			
Recognition Fees/Affiliation charges (Recognition institution)	5,00,000			
Other Sources	1,81,000			
Interest earned on investment/ Saving Bank Account	3,10,545		29,24,996	
IX. INVESTMENT ENCASHED				
			1,70,00,000	
GRAND TOTAL			24,32,34,894	

RECEIPTS AND PAYMENTS

PART—V

(Figures in rupees)

RECEIPTS	Rs.	P.	Rs.	P.
Opening Balance—				
Cash in Bank			88,71,131	
I. Grants—				
University Grants Commission				
(i) JRF under 'At any one given time basis' scheme	5,50,00,000			
(ii) Departmental Assistance	58,81,000		6,08,81,000	
II. Interest earned on—(Saving Bank Account)			1,71,118	
GRAND TOTAL	6,99,23,249			

PAYMENTS

(Figures in rupees)

	Rs.	P.	Rs.	P.
Amount transferred to Conveyance/Computer Advance Fund	1,31,00,000			
Conveyance/Computer Advance	1,07,92,000			
Amount transferred to Maintenance Account	5,70,989			
Amount refunded to Maintenance Account	25,000			
Payment of Premium of LIC on account of Group Insurance of Staff members	15,99,000			
Payment of LIC Group Insurance Claim	13,18,258			
Construction of Check Dam	1,51,961			
Research Activities and Special Lectures	89,319			
Purchase of Books & Journals (School of Physical Sciences)	47,107			
JNU— Ridge environment regeneration Scheme	48,250		3,41,35,664	
VIII. UTILISATION OF PROVIDENT FUND				
CONTRIBUTION (University Share) —				
Post Doctoral Research Scholar Hostel (Phase-I)	77,231			
Non-recurring (Advance)	13,80,000			
Miscellaneous Building	37,57,487			
Non-recurring (Advance)	16,60,000		68,80,718	
IX. CORPUS FUND ACCOUNT				
(Recurring Expenditure)			19,167	
X. INVESTMENT OF FUNDS—				
(i) House Building Fund	43,00,000			
(ii) Corpus Fund Account	6,19,502		69,19,502	
CLOSING BALANCE				
Cash in Hand	303			
Cash in Bank	1,39,91,856		1,39,92,159	
GRAND TOTAL			24,32,34,894	

ACCOUNT FOR THE YEAR 1998-99
FELLOWSHIP ACCOUNT

(Figures in Rupees)

PAYMENTS	Rs.	P.	Rs.	P.
I. JRF under 'At any one given time basis Scheme'—				
(i) Fellowship	2,89,01,330			
(ii) Contingencies	30,98,414			
(iii) House Rent Allowance	1,94,203		3,21,93,947	
II. Departmental Assistance				
Closing Balance—			58,81,000	
Cash in Bank			3,18,48,302	
GRAND TOTAL			6,99,23,249	

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT
PART-I—MAINTENANCE
EXPENDITURE

Head of Account	(Figures in rupees)
1. Administration	3,74,82,697
2. Common Services & General Charges	6,21,87,027
3. Academic Programme	13,89,19,015
4. Examinations	18,94,966
5. Library	1,78,17,955
6. Students Facilities	66,09,746
7. Scholarships	8,42,282
8. Students' Hostels	1,62,58,233
9. Publications	6,19,508
10. Other Departments	5,05,65,696
11. Miscellaneous	2,03,04,990
12. Provident Fund and Pension	2,12,57,705
13. Depreciation Reserve Fund	1,00,000
14. Transferred to statement of Assets and Liabilities—	
On Revenue Account	
(Excess Income over Expenditure)	10,98,69,804
Grand Total	47,77,99,624

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT
PART-II—DEVELOPMENT
EXPENDITURE

Head of Account	(Figures in rupees)
1. Academic Programmes—	
a. Schools	4,88,258
b. Miscellaneous other academic activities	57,04,492
c. Other Individual Scheme	29,90,933
2. Students' Hostels	1,78,855
3. Combined Entrance Examination for Bio-technology courses	13,93,138
4. Data Net Working Systems	36,258
5. Transferred to Statement of Assets and Liabilities—	
On Revenue Account	7,18,753
(Excess Income Over Expenditure)	
TOTAL	1,15,10,687

FOR THE YEAR 1998-99
(NON-PLAN) ACCOUNT

Head of Account	INCOME (Figures in rupees)
1. University Grants Commission (On Revenue Account)	44,55,91,228
2. Fees from Students	87,99,857
3. Hostels	5,17,126
4. Income from Land and Buildings	54,41,88
5. Publications (Royalties)	75,278
6. Sale of admission forms and Entrance Exams fees	84,34,640
7. Interest earned	15,44,86
8. Miscellaneous Receipts/Revenues	73,94,745
Grand TOTAL	47,77,99,624

FOR THE YEAR 1998-99

(PLAN) ACCOUNT

Head of Account	INCOME (Figures in rupees)
1. Grants—	
University Grants Commission (On Revenue Account)	67,80,506
2. Other Organisations (On Revenue Account)	26,94,000
3. Sale of Admission forms/Examination fees for Bio-technology Courses	17,71,937
4. Interest earned on (Saving Bank Account)	1,99,171
5. Miscellaneous Receipts (On Revenue Account)	65,073
TOTAL	1,15,10,687

STATEMENT OF ASSETS AND

As on 31-3-1998 Rs	LIABILITIES	As on 31-3-1999 Rs
78,88,80,408	Capitalised value of Grants	84,89,50,511*
2,37,20,623	Grants utilised for payment of Advance	3,11,09,431
	Grants under utilisation—	
5,99,16,753	i) On Revenue Account	17,05,05,310
4,95,36,718	ii) On Capital Account	5,11,80,046
	Gifts and Donation—	
24,79,377	i) Gifts and Donations	24,79,377
97,11,973	ii) Value of Books donated to University	1,06,02,944
3,09,03,344	Endowments and Prizes (Corpus)	3,33,32,755
5,38,26,185	Balance of Earmarked (Special) Fund A/c	6,53,17,148
88,71,131	Balance of Fellowship Account	3,18,48,302
2,49,90,820	Deposit Account balances (other than Provident Fund, Account	
	Depreciation Reserve Fund Account etc)	2,01,95,346
8,11,410	Depreciation Reserve Fund	3,92,390
8,56,628	Interest earned on Deposit Reserve Fund	8,56,628
6,60,68,140@	House Building Fund	6,08,12,566@@
83,069	Conveyance Advance Fund	1,32,34,722
40,97,463	Corpus Fund	70,03,292
	Provident Fund Account—	
16,91,95,352	i) General Provident Fund	20,18,50,612
4,65,00,257	ii) Contributory Provident Fund	5,21,06,519
2,37,55,344	iii) Interest	3,47,69,816
23,684	Receipts/Recoveries Awaiting Adjustment	29,359

*Includes a sum of Rs. 33.33 lakhs received from IIT, Rs. 28.33 lakhs received from NCERT towards the cost of construction of Kendriya Vidyalaya Building and Rs. 9.66 lakhs received from Kendriya Vidyalaya Sangathan towards the cost of construction of 2 quarters for KVS/Furniture

@Includes Rs. 2,21,15,139/- on account of interest earned on House Building Fund

@@Including Rs. 2,13,59,565/- on account of interest earned on House Building Fund

LIABILITIES AS ON 31-3-1998

As on 31-3-1998 Rs.	Assets	As on 31-3-1999 Rs.
	Development of University Campus—	
	Land—	
2,44,26,996	(i) At New Campus	2,44,26,996
26,676	(ii) At Ferozeshah Road	26,676
	Buildings—	
	(i) At New Campus	
28,41,38,396	A. Completed	28,55,30,440
3,00,16,006	b. Work in progress	4,45,60,019
21,07,201	(ii) At Ferozeshah Road	21,07,201
5,89,45,746	External Services	5,97,29,242
1,04,351	Tools and Platns	1,04,351
1,71,76,179	Furniture and Furnishing (excluding Library)	1,82,58,219
21,16,18,354	Equipments	23,80,30,926
9,36,177	Furnishing of Language Lab/CRS—Installation of Japanese Lab	9,36,177
	Library—	
15,87,97,780	(i) Books and journals	17,48,28,758
24,09,805	(ii) Furniture	24,25,756
4,37,667	(iii) Microfilms & Reprographic Equipment	4,37,667
71,53,067	Telephones	72,24,257
27,77,359	University Vehicles	34,06,149
	Advance of Capital nature paid out of —	
26,57,643	(i) Maintenance (Non-plan) Account	17,83,475
1,87,94,595	(ii) Development (plan) Account	2,14,00,118
22,68,385	(iii) Earmarked (Special) fund Account	42,42,677
—	(iv) Deposit Account	36,83,16
5,93,02,520	Investment of Endowments/EMF Account balances	6,21,69,557
23,93,87,050	Investment of Provident Fund	28,86,31,050
28,00,000	Investment out of Maintenance A/c	13,00,000
4,11,34,000	Investment out of Plan Account	4,54,34,000
1,79,735	Festival Advance	5,49,291
3,70,989	Motor Car/Scooter Advance	—
5,00,000	Depreciation Reserve Fund	1,00,000
1,92,45,569	Investment out of Deposits	1,32,45,569
4,07,00,000	Investment out of House Building	
	Fund Account	3,40,00,000
40,66,549	Corpus Fund	66,96,051
	Advances —	
2,23,01,511	i) House Building Advance	2,48,72,153
22,038	ii) Conveyance Advance	96,91,852
	CLOSING BALANCE—	
64,025	Imprest Account	74,525
	Cash in Bank/Hand—	
	Maintenance (Non-Plan) Account—	
10,34,736	i) University Receipts	1,86,75,11
5,01,80,881	ii) Grants from UGC	14,41,07,811
1,35,22,232	Development (Plan) Account	1,15,83,413
2,54,20,721	Earmarked (Special) Fund Account	3,64,74,058
1,01,32,605	Deposit Account (including Provident Fund	
	Account, Students' Account, House Building	
	Advance Account, Conveyance Advance	
	Account and Corpus Fund Account)	1,39,92,159
88,71,131	Fellowship Account	3,18,48,302
1,36,42,28,775	TOTAL	1,63,65,77,174

(G.C. DHONDIYAL)
ASSTT. FINANCE OFFICER (D)
JAWAHARLAL NEHRU UNIVERSITY

(M. PADMANABHAN)
DEPUTY FINANCE OFFICER
JAWAHARLAL NEHRU
UNIVERSITY

Sd/- ILLEGIBLE
FINANCE OFFICER
J.N.B.

AUDIT CERTIFICATE

I have examined the Receipt and payment accounts/Income and Expenditure accounts for the year ended 31st March, 1999 and the Statement of Assets and Liabilities as on 31st March 1999 of Jawaharlal Nehru University. I have obtained all the information and explanations that I have required and subject to the observations in the appended Audit Report, I certify as a result of my audit, that in my opinion these accounts and Statement of Assets and Liabilities are properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of Jawaharlal Nehru University according to the best of information and explanations given to me and as shown by the books of the organisation.

(H.P. DAS)
Director General of Audit
Central Revenues

Place : New Delhi
Date : 14-08-2000